



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2006/पौष 14, 1927

No. 12]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2006/PAUSA 14, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2005

का.आ. 13(अ).— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 220 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 17 फरवरी, 2005 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 के 982.00 कि.मी. से 1041.00 कि.मी. तक के भूखंड का निर्माण करने, अनुसूचना, प्रबंधन और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार “दि असम ट्रिब्यून” तारीख 12 मार्च, 2005 और “असोमिया खबर” तारीख 11 मार्च, 2005 को प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त किए गए हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार कर के निपटारा कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

असम राज्य के बारपेटा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 के 982.00 कि.मी. से 1041.00 कि.मी. तक के भूखण्ड पर अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन ।

जिमा-बारपेटा

क्र. सं.	उप-मंडल	परिमण्डल	गाँव	डैंग सं.	पट्टा संख्या.	अर्जन की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भूमि का प्रकार	भूस्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बारपेटा	(1) बारनगर	(1) दहलापारा	92 (बी)	ए.पी	361.206	निजी	1. श्री भोगीराम दास 2. श्री मेबेला राम दास पुत्र 'फेंसु दास
				120 (बी)	159	1874.32	निजी	श्री भुवनेश्वर दास पुत्र श्री मेघ धर दास
				124 (बी)		321.072	सरकारी भूमि	
				125 (बी)	180	535.12	निजी	श्री नन्देश्वर कोच पुत्र चंद्रा कोच
				126	ए.पी	1339.2	निजी	श्री अरविंद कोच पुत्र कालता कोच
				127 (बी)		535.12	सरकारी भूमि	
				128 (बी)		468.23	निजी	श्री सुरेंद्र चंद्र दास पुत्र श्री खोरो दास
				129 (बी)	153	1874.32	निजी	1. श्री प्रफुल दास 2. श्री मनमोहन दास 3. श्री तोनुराम दास पुत्र चंदीचरन दास
				130 (बी)	ए.पी	334.45	निजी	1. श्री रूप बाला दास 2. श्री पुटुली बाला दास 3. श्री सावित्री बाला दास 4. श्री नेमाती बाला दास पुत्र मोहन दास
				136 (बी)		93.646	सरकारी भूमि	
				138 (बी)	ए.पी	695.656	निजी	श्री उमेश चंद्र दास पुत्र मोहिन दास
				139	ए.पी	2315.794	निजी	श्री उमेश चंद्र दास पुत्र मोहिन दास
				602 (बी)	पी पी	347.828	निजी	1. श्री सत्यवान दास 2. श्री मनमोहन दास 3. श्री भवनान्दा दास पुत्र उमेश दास 4. श्री कुंज लता दास पत्नी उमेश दास
				704 (बी)	पी पी	267.56	निजी	श्री नन्देश्वर कोच पुत्र चंद्रा कोच
			(2) दक्षिण गनक गारी	28 (बी)	282	307.694	निजी	1. श्री धरनीधर दास पुत्र मोहादर दास 2. श्री खजेंद्र दास पुत्र रामेश्वर दास
				29 (बी)	59	722.412	निजी	1. धनंजय दास पुत्र सीताराम दास 2. श्री देवेन्द्र नाथ दास पुत्र गजेन्द्र दास 3. श्री रुदेश्वर शर्मा पुत्र स्व. सिधेश्वर बर्मन 4. श्री कमलेश्वर दास पुत्र शाहीराम दास 5. श्री अमरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पुत्र ठाकुर अनुकुल चक्रवर्ती
				30 (बी)	193	1432.846	निजी	श्री राबेन देका पुत्र उपेंद्र देका

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(3) उत्तर गनक गारी	179	23	401.34	निजी	1. श्री दीना नाथ ओझा 2. श्री अश्विनी कु.ओझा 3. श्री प्रफुल्ल चंद्र ओझा 4. श्री सुसेन ओझा 5. श्री नबराम ओझा 6. श्री घनश्याम दास
				180	23	321.072	निजी	1. श्री दीनानाथ ओझा 2. श्री सचरिनी ओझा 3. श्री प्रफुल्ल चंद्र ओझा पुत्र केशव दास 4. श्री सुसेन कु. ओझा 5. श्री नबराम ओझा पुत्र दाहिरेन ओझा 6. श्री तरानी ओझा पुत्र स्व. मोला ओझा 7. श्री घनश्याम दास पुत्र स्व. निरोरम दास
			(4) निज डमोका	597	75	254.182	निजी	1. श्री नारानरायण मेधी 2. श्री धनेश्वर मेधी 3. श्री कनक चंद्र मेधी 4. श्री जगदीश मेधी पुत्र स्व. गंदो मेधी
				245	56	682.278	निजी	1. श्री नरेश्वर दास 2. श्री सर्वेश्वर दास 3. श्री उपेंद्र दास पुत्र स्व. कृष्णकांत
				244	163	1633.516	निजी	श्री धर्मेश्वर मेधी पुत्र गंदो मेधी
				247	75	575.254	निजी	1. श्री नारानरायण मेधी 2. श्री धनेश्वर मेधी 3. श्री कनक चंद्र मेधी 4. श्री जगदीश मेधी पुत्र स्व. गंदो मेधी
			(5) बंदरखोवा	150	पी पी	642.144	निजी	श्री गंदो राम दास पुत्र कोहिराम दास
				152	पी पी	535.12	निजी	1. श्री राबिन दास 2. श्री कर्पेदर दास 3. श्री परेश दास पुत्र स्व. दिबाकर दास
				198		307.694	सरकारी भूमि	
				199		361.206	सरकारी भूमि	
				200		361.206	निजी	1. श्री रामजित दास 2. श्री हरिचरण दास 3. श्री परमार दास 4. श्री भोगीराम दास 5. श्री कमलेश्वर दास पुत्र भुषण चंद्र दास
				201	पी पी	441.474	निजी	श्री मोजाराम दास पुत्र दमोहो दास
				202		441.474	सरकारी भूमि	
				203		321.072	सरकारी भूमि	
				204	पी पी	307.694	निजी	1. श्री पनेश्वर दास 2. श्री धीरेश्वर दास 3. श्री धानेश्वर दास 4. श्री गंदारु दास पुत्र श्री नूराम दास
				209	पी पी	107.024	निजी	श्री हरिराम दास पुत्र द्वि मिथाराम दास

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				272	पी पी	414.718	निजी	1. श्री रामाजीत दास 2. श्री हरिचरण दास 3. श्री परमान दास 4. श्री भोगीराम दास 5. श्री कमलेश्वर दास पुत्र भूषण चंद्र दास
				374	पी पी	347.828	निजी	श्री घनेश्वर दास पुत्र रामो साउद
				400		294.316	सरकारी भूमि	
				401	पी पी	374.584	निजी	श्री धेंदु बाला दास पत्नी हरिराम
				315		2008.1	सरकारी भूमि	
				316		13392	सरकारी भूमि	
				325		802.68	सरकारी भूमि	
				326		869.57	सरकारी भूमि	
			(6) बालाभीता	62	22	53.512	निजी	श्री स्फुर अली पुत्र स्व. असान अली
				63	27	1177.264	सरकारी भूमि	
				64	4	963.216	निजी	श्री काशीचरण दास पुत्र गुरुदयाल दास
				65	4	668.9	निजी	श्री काशीचरण दास पुत्र गुरुदयाल दास
				66	4	481.608	निजी	श्री काशीचरण दास पुत्र गुरुदयाल दास
				67	13	1070.24	निजी	1. नगेंद्र चंद्र रॉय 2. उपेंद्र चंद्र रॉय पुत्र स्व. सुरेंद्र चंद्र रॉय
				72	91	802.68	निजी	1. नगेंद्र चंद्र रॉय 2. उपेंद्र चंद्र रॉय पुत्र स्व. सुरेंद्र चंद्र रॉय
				73	49	107.024	निजी	1. श्री नाहक सरकार पुत्र श्री भवेश 2. श्री लाल मो. अंसारी पुत्र हुसैन अली 3. श्री नगेंद्र चंद्र रॉय 4. श्री उपेंद्र चंद्र रॉय पुत्र स्व. सुरेंद्र चंद्र रॉय
			(7) बारपेटा रोड टाउन	1879	432	200.67	निजी	श्री प्रफुल्ल कु. खयेत्रिया पुत्र मानिक चंद्र खयेत्रिया
				1507	382	133.78	निजी	1. श्री नारायण खयेत्रिया 2. श्री गांधीराम खयेत्रिया 3. श्री भारती खयेत्रिया 4. श्री सार्थी खयेत्रिया पुत्र हरेकृष्ण खयेत्रिया
				1514	191	40.134	निजी	श्री गोविंद तिलक दास पुत्र श्री गंगा चरण दास
				1876	पी पी	133.78	निजी	ऑयल इंडिया लि.
				1873	पी पी	321.072	निजी	ऑयल इंडिया लि.
				1291	पी पी	173.914	सरकारी भूमि	
				1861	पी पी	187.292	निजी	ऑयल इंडिया लि.
				1570	पी पी	361.206	निजी	ऑयल इंडिया लि.
				1857	पी पी	816.058	निजी	ऑयल इंडिया लि.
				1582	603	267.56	निजी	श्री महावीर प्रसाद मोर पुत्र श्री गणपत मोर
				1581	603	147.158	निजी	श्री महावीर प्रसाद मोर पुत्र श्री गणपत मोर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1589	789	642.144	निजी	श्री बाबुलाल मोर पुत्र श्री गणपत मोर
				1590	846	588.632	निजी	श्री जनार्दन कलिता
				1592	846	896.326	निजी	1. श्री जनार्दन कलिता पुत्र उमाकांत कलिता 2. श्री भारत चंद्र कलिता 3. श्री रमानी कलिता 4. श्री केशव कलिता पुत्र स्व. हरिश चंद्र कलिता
				2032	982	829.436	निजी	1. श्री रमेश चंद्र दास पुत्र श्री लेखुराम दास 2. श्री इंद्रेश्वर दास पुत्र दामोदर दास
				1593		294.316	निजी	
				1682	935	842.814	निजी	श्री बसंत प्रसाद ब्रह्मचारी पुत्र हरिप्रसाद
				1683	516	93.646	निजी	1. श्री बसंत प्रसाद ब्रह्मचारी पुत्र हरिप्रसाद 2. श्रीमती हरिनमोई ब्रह्मचारी पत्नी गजेंद्र
				1969	516	53.512	निजी	1. श्री बसंत प्रसाद ब्रह्मचारी पुत्र हरिप्रसाद 2. श्रीमती हरिनमोई ब्रह्मचारी पत्नी गजेंद्र
				1699	749	227.426	निजी	श्री सरेंद्र मोहन राज पुत्र पुर्नो चंद्र राय
				1998		535.12	सरकारी भूमि	
				1702	पी पी	66.89	निजी	1. श्री सुनिलाल बसाक पुत्र जानकी लाल 2. श्री मधुसूदन दास पुत्र काशीनाथ दास
				1712	383	80.266	निजी	1. श्री नबिन चंद्र दास पुत्र मोहिराम 2. श्री कुसुम कु. दास पत्नी नविनचन सराउगी
				1713	384	133.78	निजी	1. श्री निन्ना चंद सराउगी पुत्र संपालाल 2. श्री सत्यवान शर्मा पुत्र गंगाराम
				1714	384	160.536	निजी	1. श्री निन्ना चंद सराउगी पुत्र संपालाल
				1715	98	187.292	निजी	श्री उमानंद चौधरी पुत्र हरिया चं.
				1948	747	214.048	निजी	1. श्री महेंद्र लाल शाह 2. श्री मोदान मोहन शाह पुत्र गोपाल
				1932	799	254.182	निजी	श्री सत्य नारायण अग्रवाल पुत्र गोपाल चंद्रा
				1931	800	66.89	निजी	1. श्री सुरेंद्र मोहन शाह पुत्र गोपाल चंद्रा 2. श्री रबिंद्र मोहन शाह पुत्र पंचानन्द
				1576	पी पी	535.12	निजी	श्री सदानन्द कांच पुत्र रामसुंदर
				1679	694	53.512	निजी	श्री रबिनाथ देव शर्मा पुत्र धीरूनाथ शर्मा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(8) जखलीरपुर	17	19	40.134	निजी	1. श्री रोहिणी कु. दास 2. श्री अकान च. दास पुत्र स्व. मधुसूदनदास 3. श्री मोनोमती दास पत्नी स्व. मधुसूदन दास 4. हनिफ अली अहमद 5. श्री उमर अली अहमद पुत्र स्व. अइयास यूहेद
				18	118	107.024	निजी	1. श्री खनिन्द्रा नाथ दास पुत्र स्व. धीरेंद्र नाथ दास 2. श्री कुशाधर दास पुत्र उमाकांत काकती
				19	53	682.278	निजी	श्री मोतीलाल देवनाथ पुत्र गोपीनाथ
				20	2	441.474	निजी	1. श्री उमा देवी पत्नी मालीराम 2. श्री शाबी बाला पाठक पत्नी दामोदर
				21	1	909.704	निजी	श्री गोविंद राम अग्रवाल पुत्र नारायण 2. श्री शंकरलाल चौधरी पुत्र मारंग राय
				23	154	294.316	निजी	आसाम ऑटो एजेंसी एच.ओ. सिलॉग
				24	154	214.048	निजी	आसाम ऑटो एजेंसी एच.ओ. सिलॉग
				25	50	535.12	निजी	1. श्री शिवनाथ शर्मा पुत्र लखन 2. श्री सरदार गुरुमल सिंह पुत्र सरदार निरंजन 3. श्री सूरज प्रसाद शाउद पुत्र रामलखन 4. श्री रंगलाल शाउद पुत्र भागन राम 5. श्री दिगन्ता दास 6. श्री निशांत दास पुत्र स्व. तरिनी दास 7. श्रीमती पद्मिनी दास पत्नी स्व. तरिनी दास 8. श्री नारायण करमाकर पुत्र स्व. वेनीमाधव 9. श्री गोपाल करमाकर पुत्र नारायण करमाकर 10. श्रीमती बीणा देवी दास पत्नी जोगीनन्द दास 11. डॉ. मंसूर रहमान सिकंदर पुत्र ए. गनी सिकंदर 12. श्री चक्रधर ग्यान पुत्र स्व. चंद्रमोहन ग्यान
				292	50	240.804	निजी	1. श्री दिगंत दास 2. श्री निशांत दास पुत्र स्व. तरानी दास 3. पद्मिनी दास पत्नी स्व. तरानी दास 4. श्री अबतार सिंह पुत्र स्व. चाहव सिंह 5. श्री जशवंत कौर पत्नी स्व. चाहव सिंह 6. मौ. चाहव हक पुत्र स्व. अचिमुद्दिन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(9)गोबिन्द पुर	56	पी पी	361.206	निजी	1. श्री दिजेंद्र चेतरी पुत्र बिरेंद्र 2. श्री अजित कु. सिंह 3. श्री टिकेन कु. सिंह 4. श्री सुशील कु. सिंह 5. श्री कुंजलाल सिंह पुत्र रेघु सिंह 6. श्रीमती कुंती बाला चेतरी पत्नी रेघु सिंह 7. श्री चंद्र किशोर 8. श्री हिम्मत प्रसाद चेतरी 9. श्री ज्योतिर्मय चेतरी पुत्र त्रिभुवन चेतरी 10. श्रीमती सुमित्रा चेतरी पत्नी त्रिभुवन चेतरी
				58	पी पी	548.498	निजी	श्री मो. अली शेख पुत्र असन उल्लाह
				59/342	पी पी	1137.13	निजी	1. श्री हतेम अली 2. श्री जलालुद्दीन 3. श्री अलताब अली पुत्र मोहर हाजी
				85/344	पी पी	321.072	निजी	1. श्री राजेन्द्र ब्रह्मा पुत्र लाधोप 2. श्री गजेन ब्रह्मा 3. श्री नजिन ब्रह्मा 4. श्री नबिन ब्रह्मा पुत्र दादु ब्रह्मा
	(2) बारपेटा	(1) हाउली टाउन		105	84	120.402	निजी	1. चंदन चनरन दास पुत्र बालिचनरन 2. श्री जगदीश कुमार पुत्र स्व. सीताराम 3. श्री अंजलि दास चौधरी पत्नी स्व. दोनाराम 4. श्री दिपाकर दास पुत्र स्व. दोनाराम 5. श्री प्रमोद नाथ पुत्र गिरिश नाथ
				106	321	602.01	निजी	1. श्री सर्जनन्द दास 2. श्री परमानंद दास पुत्र मोलोका राम दास
				116	634	40.134	निजी	1. श्री राजमोहन चौधरी पुत्र दुलाल 2. श्री चक्रधर दास पुत्र रामचंद्रन 3. श्री सुभद्राबाला दास पत्नी हरेंद्र नाथ दास 4. श्री गिरिजा मोहन चौधरी 5. श्री जितेंद्र चौधरी 6. श्री मनोरंजन चौधरी 7. श्री नरिपेंद्र चौधरी पुत्र राजमोहन चौधरी 8. श्री बानमली दास पुत्र हरेन्द्र 9. डॉ. हनिफ उल्लाह पुत्र मो. सागर अली
				117	107	828.766	निजी	1. श्री तानी कांत दास पुत्र धानराम 2. श्री राजेश दास पुत्र स्व. गंगाधर दास
				369	181	120.402	निजी	श्री कनक चंद्र चलोई पुत्र गोदाराम
				383	97	93.646	निजी	श्री चंद्र मोहन शाह पुत्र रोहिनी कांत
				1731	135	387.962	निजी	1. श्री कुमातीराम दास 2. श्री कनक दास 3. श्री नकुल चंद्र दास पुत्र सुकन दास 4. श्री प्रभात दास 5. श्री भागिरथ दास पुत्र राजुराम 8. श्री धनानन नाथ पुत्र गिरिश नाथ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				382	135	93.646	निजी	1. श्री कुमातीराम दास 2. श्री कनक दास 3. श्री नकुल चंद्र दास पुत्र सुकन दास 4. श्री प्रभात दास 5. श्री भागिरथ दास पुत्र राजुराम 6. श्री तरुनी बाला दास पत्नी धानेश्वर दास 7. श्री मनमोहन दास पुत्र ज्ञानकांत
				381	84	789.302	निजी	श्री चंद्रकांत भट्टाचार्य पुत्र लोकनाथ
				1639	668	26.756	निजी	1. श्री राधासामण शाह 2. श्री बाबुलाल शाह पुत्र हीरालाल 3. श्री नारायण चंद्र शाह पुत्र बृंदाबन 4. श्री जितेंद्र मोहन शाह पुत्र महिन्द्र 5. श्री दयाल चंद्र शाह पुत्र मुसिराम 6. श्री सुरेंद्र शाह पुत्र शारू 7. श्री कालीनाथ शाह पुत्र भाखन 8. श्री कनईलाल शाह पुत्र जादेव 9. श्री जोगेश करमाकर पुत्र आदहर 10. श्री नानी बाला शाह पत्नी चंद्रमोहन 11. श्री धीरेंद्र कु. शाह पुत्र श्यामिल 12. श्री मंगल चंद्र शाह पुत्र गुपेश्वर 13. श्री पाशु करमाकर पुत्र जादूनाथ 14. श्री जोगेंद्र शाह 15. श्री सुधीर शाह
				1618	710	40.134	निजी	श्री गुनिन चंद्र दास पुत्र स्व. चंदुचरण दास
				1617	4701	40.134	निजी	श्री सुनिल कु. पाठक पुत्र भुवन चंद्र पाठक
				1616	243	227.426	निजी	1. श्री चानमोहन शाह पुत्र कांथु 2. श्री सुनिल कु. पाठक पुत्र भुवन चंद्र पाठक
				1615	613	107.024	निजी	सेक्रेटरी एसोसिएसन ऑफ स्माल इंडस्ट्री, हुवली
				1614	544	107.024	निजी	1. श्री पनिन्द्र मोहन चाहा पुत्र गोपेश्वर 2. श्री चरण कु. शाह 3. श्री पारिमल शाह 4. श्री सुभाष शाह 5. श्री उत्तम शाह 6. श्री प्रदीप शाह 7. श्री स्वदीप शाह पुत्र स्व. मंगल शाह
				1613	702	60.201	निजी	श्री सुधीर चं. शाह पुत्र शशिमोहन
				1612	758	13.378	निजी	श्री भयानी बाला शाह पत्नी जोगेश चं. शाह
				558		2275.66	सरकारी भूमि	
			(2) इतर भाटा	702	170	187.292	निजी	1. श्री मनार अली ना 2. श्री चान मिया ना 3. श्री सोना मिया ना 4. श्री पाल मिया ना पुत्र गोहेर अली
				703	170	254.182	निजी	1. श्री मनार अली ना 2. श्री चान मिया ना 3. श्री सोना मिया ना 4. श्री पाल मिया ना पुत्र गोहेर अली

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				787	26	294.316	निजी	श्री अंबेब अली मिया पुत्र दुखत मिया
				788	26	93.646	निजी	श्री अंबेब अली मिया पुत्र दुखत मिया
				843		1740.54	सरकारी भूमि	
			(3)कलजर	576	1एन के	454.852	निजी	1. श्री दुर्लभ चं. खतोनिया 2. श्री सतिश चं. खतोनिया 3. श्री पुमा चं. खतोनिया पुत्र महेश्वर
				578	1एन के	147.158	निजी	श्री उपेन खतोनिया पुत्र कमला
				180	1एन के	160.536	निजी	श्री उधव चं. बैशनब पुत्र सुधान
				443	1एन के	829.436	निजी	श्री सुधा कालिता पुत्र उषा
				444	1एन के	976.594	निजी	1. श्रीमती मोती बाला पत्नी ओथा 2. श्रीमती सावित्री बाला पत्नी करुणा
				446	1एन के	749.168	निजी	श्री दीनानाथ कालिता पुत्र साना
				448	1एन के	307.694	निजी	1. श्रीमती मोती. बाला पत्नी ओथा 2. श्रीमती सावित्री बाला पत्नी करुणा
				433	1एन के	80.268	निजी	श्री तारासुभन अधिकारी पुत्र बैकुन्त
				553	1एन के	2275.66	निजी	श्री तुला मिया पुत्र अहमद हुसैन
				554	1एन के	816.058	निजी	श्री अशान अली पुत्र राफेत उल्लाह
				555	1एन के	2583.354	निजी	1. श्री कांधार खां पुत्र बिरन खां 2. श्री नयतन नेच पत्नी अफसार अली 3. श्री सादुल रहमान पुत्र अब्दुर चाकुर
				556	1एन के	789.302	निजी	1. श्री साकुर अली 2. श्री गुलाम सरोवर 3. श्री रूप मोल्ला पुत्र खुशीमुद्दीन
				1164	1एन के	1499.736	निजी	श्री प्रफुल्ल बयान पुत्र नबिन
			(1)हरीपुर	560		909.704	निजी	श्री रजनी कांत तालुकदार श्री मंदलाल तालुकदार श्री माधव चं. तालुकदार श्री भूपेन तालुकदार श्री कमाल तालुकदार श्री सुनिल तालुकदार श्री रंजीत तालुकदार पुत्र महेश्वर
				561		321.072	निजी	श्री मुकुन्द बयान पुत्र स्व. नरिन्द
				562	51	280.938	निजी	1. श्री प्रबिन तालुकदार पुत्र स्व. धनेश्वर 2. श्री रीना तालुकदार पत्नी स्व. महेश्वर तालुकदार
				559		107.024	निजी	पश्चिम भवानीपुर समबाया समिति लि.
			(2)कुरुबहा पथेर	83एम		3681.75	सरकारी भूमि	
			(3)राजाखाट	340		535.12	सरकारी भूमि	
				341		802.68	सरकारी भूमि	
				342		535.12	सरकारी भूमि	
				347		535.12	सरकारी भूमि	
				241		535.12	निजी	1. मो. अब्दुल मलिक पुत्र मो. अब्दुल 2. रफिक अहमद पुत्र मो. अकबर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				240		2141.88	निजी	1. मो. इस्माइल हुसैन पुत्र मो. सिद्दीकी हुसैन 2. मो. हुसैन अली 3. मो. अमन अली पुत्र मंगल 4. मो. बुद्धु मिया पुत्र सबदल मिया
				237		267.56	निजी	मो. इस्माइल हुसैन पुत्र हामिद
				236		2329.172	निजी	1. हजरत अली पुत्र हामिद 2. अर्जुन चं. बैरागी पुत्र राजमोहन बैरागी 3. मो. फखरुद्दीन पुत्र कलिमुद्दीन 4. मो. जौहर खातून पत्नी मो. सालम
				245		2678.4	निजी	श्री अर्जुन बैरागी पुत्र रामदयाल
				246		1472.98	निजी	श्री अर्जुन बैरागी पुत्र रामदयाल
				235		133.78	निजी	मो. अब्दुल कादिर अली पुत्र नबी हुसैन
				234		1406.09	निजी	मो. अब्दुल कादिर अली पुत्र नबी हुसैन
				247		401.34	निजी	फजीउर रहमान पुत्र अजिजुल रहमान
				248		6696	निजी	फजीउर रहमान पुत्र अजिजुल रहमान
				249	एकसाना	267.56	निजी	अहिद अली शाह पुत्र अहमद अली
				251		133.78	निजी	अलिमुद्दीन पुत्र स्व. मानिक
				281	25	1043.484	निजी	मुबारक अली पुत्र मियाबरख्स
				278	एकसाना	668.9	निजी	मिस दिवारा बेगम पत्नी अब्दुल समद
				307	25	401.34	निजी	मुबारक अली पुत्र मियाबरख्स
				308	एकसाना	4017.6	निजी	हजरत अली शेख पुत्र उस्मान नबाब अली
				309	33	0		1. जनमोहन मंडल पुत्र राज मोहन 2. मिरजानूर रहमान पुत्र मुबारक अली
				318	34	1339.2	निजी	1. मिरजानूर रहमान पुत्र मुबारक अली 2. जनमोहन पाल पुत्र स्व. बिश्वनाथ 3. ईशाक अली पुत्र मुबारक 4. अबुबाक्कर सिद्दीकी पुत्र मफिजुद्दीन
				319	31	4017.6	निजी	1. आकाश अली पुत्र अर्ज 2. मल्लिका भानु पत्नी आकाश अली 3. अब्दुल कलाम पुत्र मुबारक 4. अबुबाक्कर सिद्दीकी पुत्र मफिजुद्दीन 5. जनमोहन मंडल पुत्र राज मोहन 6. ईशाक अली पुत्र मुबारक
				320	32	1446.224	निजी	मोहन सरकार पुत्र मथुरा सरकार
				322	20	1472.98	निजी	1. मिरजानूर रहमान 2. अहमद हाजिफ अली 3. ईशाकत अली 4. इदरिस अली 5. अब्दुल कलाम 6. नुरुल इस्लाम 7. अब्दुल कासिम 8. हासिम अली पुत्र मुबारक अली

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				323	20	2945.96	निजी	1. मिरजानूर रहमान 2. अहमद हाजिफ अली 3. इशाकत अली 4. इदरिस अली 5. अब्दुल कलाम 6. नुरुल इस्लाम 7. अब्दुल कासिम 8. हासिम अली पुत्र मुबारक अली
				250	26	535.12	निजी	1. मो. करिब शेख 2. मो. महमद शेख पुत्र साबेद शेख 3. अमिना खातून पत्नी जौहर अली 4. हवेजा खातून पत्नी जौहर अली 5. खादेजा बीवी पत्नी आर. हुसैन 6. खेजूदा बीवी पत्नी साबेद अली 7. अलिमुद्दीन पुत्र मानिक
				276		668.9	सरकारी भूमि	
				282	26	2275.66	निजी	1. फजीउर रहमान 2. मजिबुर रहमान पुत्र अजिजुल रहमान
				283	1	1339.2	निजी	हसन अली पुत्र इब्राहिम अली
				284	5	267.56	निजी	पवित्र शर्मा पुत्र मनोहरी शर्मा
				285	42	133.78	निजी	1. अब्दुल खालेक 2. अब्दुल बारक पुत्र अब्दुल सामद
				280	8	1070.24	निजी	1. फजिउर रहमान 2. मजिबुर रहमान पुत्र अजिजुल रहमान
				279	8	535.12	निजी	कुदुस अली पुत्र अब्दुल गफ्फुर
				324	एकसाना	3200.142	निजी	1. उमर अली 2. इशाक अली पुत्र सुकुर देवानी
				358		1339.2	सरकारी भूमि	
				359		1339.2	सरकारी भूमि	
			(4) तंगला	156		535.12	निजी	1. श्री कृष्णकांत बर्मन 2. बिष्णु कांत बर्मन पुत्र जितेंद्र बर्मन
				154	12	535.12	निजी	1. श्री निशीकांत बर्मन 2. श्री अतुल बर्मन 3. श्री रोहिणी बर्मन पुत्र नबिन बर्मन
				153	12	401.34	निजी	1. श्री अतुल बर्मन 2. श्री निशीकांत बर्मन 3. श्री अनिल बर्मन पुत्र, पुत्री नबिन बर्मन
				151	11	267.56	निजी	1. श्री किरण चं. बर्मन पुत्र नबिन बर्मन 2. श्री अतुल बर्मन पुत्र नबिन बर्मन 3. श्रीमती रेणुका बर्मन पुत्री बिपिन
				152	11	267.56	निजी	1. श्री किरण चं. बर्मन पुत्र नबिन बर्मन 2. श्री अतुल बर्मन पुत्र नबिन बर्मन 3. श्रीमती रेणुका बर्मन पुत्री बिपिन
				150		535.12	निजी	श्री रेणुका बर्मन पुत्री बिपिन
			(5) चरलपाड़ा	834	115	535.12	निजी	श्री बरुण चौधरी पुत्र सोनाराम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				823	229	1339.2	निजी	1. श्री उपेंद्र राय 2. श्री तरुण राय 3. श्री अमेबेन्द्र राय पुत्र मिनी 4. श्री खजेन्द्र राय 5. श्री अश्विनी राय 6. श्री रमेश राय पुत्र शिशु 7. श्री गिरिश राय 8. श्री प्रफुल्ल राय पुत्र मंगई 9. श्री स्तनेश्वर राय 10. श्री भबेस राय पुत्र धीरू 11. श्रीमती सनादिया शाह पत्नी लक्ष्म शाह 12. श्री गणेश शर्मा पुत्र स्व. जगन्नाथ शर्मा
				817	283	668.9	निजी	1. श्री अनन्त ककोती 2. श्री अजित ककोती पुत्र केशव ककोती 3. श्री होमेश्वर चौधरी 4. श्री जनार्दन चौधरी
				818	के-एकसाना	133.78	निजी	1. श्री रबिन्द्र दास 2. श्री गोपेस चौधरी 3. श्री अमरेंद्र चौधरी पुत्र गिरिश 4. श्रीमती खिरोदा चौधरी पत्नी देवेंद्र
				815	के-एकसाना	775.924	निजी	1. श्री रबिन्द्र दास 2. श्री गोपेस चौधरी 3. श्री अमरेंद्र चौधरी पुत्र गिरिश 4. श्रीमती खिरोदा चौधरी पत्नी देवेंद्र
				814	के-एकसाना	802.68	निजी	श्री अनन्त ककोती 2. श्री अजित ककोती पुत्र केशव ककोती 3. श्री होमेश्वर चौधरी 4. श्री जनार्दन चौधरी पुत्र केशव चौधरी
				812		1070.24	सरकारी भूमि	
				811		1339.2	सरकारी भूमि	
				803	के एम-100	1270.91	निजी	1. श्री हरिन्द्र कालिता पुत्र पिथु 2. श्री गिरिन्द्र कालिता पुत्र अदुआ
				802	के एम-100	2879.07	निजी	1. श्री हरिन्द्र कालिता पुत्र पिथु 2. श्री गिरिन्द्र कालिता पुत्र अदुआ
				805	के एम-32	802.68	निजी	श्री हासकांत कालिता पुत्र भुगो कालिता
				816		668.9	सरकारी भूमि	
				800		468.23	सरकारी भूमि	
				824		2503.086	सरकारी भूमि	
				825		1606.76	सरकारी भूमि	
				826		2008.1	सरकारी भूमि	
		(2) बाजली	(1) दुमुरिया	14/630		428.096	सरकारी भूमि	
				680		1513.114	सरकारी भूमि	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8	के एम-13	896.326	निजी	1. श्रीमती सरस्वती दास पत्नी रजनीकांत दास 2. श्री अबानी कु. शर्मा 3. श्री प्रकाश कु. शर्मा 4. श्री नाबा कु. शर्मा 5. श्री धुर्बा कु. शर्मा पुत्र स्व. कृष्ण कांत 6. श्री दिलिप शर्मा 7. श्री फनिन्द्रा शर्मा 8. श्री धरनिधर शर्मा 9. श्री मनोज कु. शर्मा पुत्र स्व. सर्वेश्वर 10. श्री खानिन शर्मा 11. श्री मनोरंजन शर्मा 12. श्री हिराम्बा शर्मा पुत्र स्व. शशि 13. श्रीमती दिपाली शर्मा 14. श्री हिरक शर्मा 15. श्री मृदुल शर्मा पुत्र स्व. विनोद 16. श्रीमती मलिता शर्मा पुत्री स्व. विनोद 17. श्री देवप्रतिम दास पुत्र बसंत दास 18. श्रीमती बरनाली चौधरी पुत्री स्व. अच्युत
				9	के एम-13	615.388	निजी	1. श्री अबानी कु. शर्मा 2. श्री प्रकाश कु. शर्मा 3. श्री नाबा कु. शर्मा 4. श्री धुर्बा कु. शर्मा पुत्र स्व. कृष्णकांत 5. श्री दिलिप शर्मा 6. श्री फनिन्द्रा शर्मा 7. श्री धरनिधर शर्मा 8. श्री मनोज कु. शर्मा पुत्र स्व. सर्वेश्वर
			(2)पाठशाला			173.914	सरकारी भूमि	
				2	के एम-37	602.01	निजी	1.मो. ताहेर अली पुत्र आनन्दी अली 2. श्री जयनई अली 3. श्री मोहर अली पुत्र आनन्दी अली 4. श्री चित्रा दास पत्नी श्री निकुंज
				3	के एम-86	294.316	निजी	श्री चित्रा दास पत्नी श्री निकुंज
				5	के एम-10	428.096	निजी	1. श्री रतन लाल अग्रवाल पुत्र भगवान अग्रवाल 2. श्री अरविंद काकोती पुत्र नेउला 3. श्री लाकेश्वर कलिता पुत्र रतिराम 4. श्री हेमादा कलिता पुत्री श्री मोही चंद्रा 5. श्री चित्रा दास पत्नी श्री निकुंज
				6	के एम-84	294.316	निजी	1. श्री रतन लाल अग्रवाल पुत्र भगवान अग्रवाल 2. श्री अरविंद काकोती पुत्र नेउला 3. श्री लाकेश्वर कलिता पुत्र रतिराम 4. श्री हेमादा कलिता पुत्री श्री मोही चंद्रा
				7	के एम-111	842.814	निजी	1. श्री रतन लाल अग्रवाल पुत्र भगवान अग्रवाल 2. श्री सुशील कु. जलोवा पुत्र भगवान
				8	के एम-75	361.206	निजी	1. श्री मदन कलिता 2. श्री सनातन कलिता 3. श्री अरविंद कलिता पुत्र पुठाराम 4. श्री पुष्पा अग्रवाल 5. श्री रतन लाल अग्रवाल 6. श्री सुशील कु. अग्रवाल पुत्र भगवान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(3) नालना	143	के एम-4	1096.996	निजी	1. श्री हरेन्द्र नाथ कलिता पुत्र प्रिथु 2. श्री गिरिन्द्र नाथ कलिता पुत्र आत्माराम 3. श्री परीक्षित ककोती 4. श्री लखेश्वर ककोती पुत्र हाराकांत 5. श्री नरिपेन ककोती पुत्र मंगाराम 6. श्री मथुरा बोरकाकोती पुत्र गोलोक
				146	के एम-55	2008.1	निजी	1. श्री महहोदर खतनियार पुत्र भुगो 2. श्री प्रफुल्ल ककोती पुत्र जनक 3. श्री परीक्षित ककोती 4. श्री लखेश्वर ककोती पुत्र हाराकांत 5. श्री नरिपेन ककोती पुत्र गरगाराम 6. श्री मथुरा बोरकाकोती पुत्र गोलोक
				147	के एम-213	1606.76	निजी	1. श्री महोदर कटनियार पुत्र भुगो 2. श्री परीक्षित ककोती 3. श्री लखेश्वर ककोती पुत्र हाराकांत 4. श्री नरिपेन ककोती पुत्र गरगाराम
				148	के एम-38	909.704	निजी	1. श्री परीक्षित ककोती पुत्र स्व. हाराकांत
				149	के एम-38	749.168	निजी	1. श्री परीक्षित ककोती पुत्र स्व. हाराकांत
			(4) पाटशाला टाउन	28	एन के-88	153.847	निजी	1. श्री भुमिदार दास पुत्र उत्तम 2. श्री तारा प्रसाद दास पुत्र भुमिदार 3. श्री गिरिश चं. रॉय पुत्र मंगल 4. श्री गिरिजा कु. तालुकदार पुत्र गोलोक तालुकदार 5. श्री राजेन रॉय पुत्र फतिक 6. श्री मोहोदर रॉय 7. श्री आनन्द रॉय पुत्र बापुराम 8. श्री प्रदिप तालुकदार पुत्र जोगेन्द्र
				36	एन के-69	100.335	निजी	1. श्री नरनारायण शर्मा 2. श्री चंद्रा कांत शर्मा 3. श्री हरेन्द्र नाथ शर्मा 4. श्री दिनानाथ शर्मा पुत्र कृष्ण कांत 5. श्री मुनिन्द्र नाथ कलिता पुत्र आनन्दी कलिता
				39	एन के-56	80.268	निजी	1. श्री भनिन्द्र नाथ कलिता पुत्र आनन्दी कलिता 2. श्री दाक्या कु. दास पुत्र सुस्थ पटगिरि 3. श्री रविन्द्र नाथ पटगिरि पुत्र सुस्थ पटगिरि 4. श्री सुरेन्द्र नाथ शर्मा पुत्र दिनानाथ
				40	एन के-35	80.268	निजी	1. श्री पबित्र शर्मा 2. श्री विरेन शर्मा 3. श्री बिमल शर्मा पुत्र चंद्रा कांत
				43	एन के-113	80.268	निजी	1. श्री मनोरंजन शर्मा 2. श्री गगन शर्मा 3. श्री गिरिजा शर्मा 4. श्री करुणा शर्मा पुत्र हरेन्द्र 5. श्री कल्याणी चौधरी पत्नी आरुखा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				44	एन के-11	80.268	निजी	1. श्री कालीनाथ देवा शर्मा पुत्र कृष्ण कांत 2. श्री चंदन शर्मा पुत्र सरत शर्मा 3. श्री नित्यानंद शर्मा 4. श्री तरिणि शर्मा 5. श्री गोपाल शर्मा पुत्र ललित 6. श्री कल्याणी चौधरी पत्नी आख्या 7. श्री ध्रुवजित देवा शर्मा 8. श्री गुणजित देवा शर्मा 9. श्री सतेंद्रजित देवा शर्मा पुत्र नित्यानंद
				47	एन के-107	60.268	निजी	1. श्री चन्दन कु. शर्मा पुत्र शरत शर्मा 2. श्री तरिणि शर्मा 3. श्री नित्यानन्द शर्मा 4. श्री गोपाल शर्मा पुत्र लोहित 5. श्री कल्याणी चौधरी पत्नी आख्या 6. श्री ध्रुवजित देवा शर्मा 7. श्री गुणजित देवा शर्मा 8. श्री सतेन्द्रजित देवा शर्मा पुत्र नित्यानन्द
				48	एन के-68	387.962	निजी	1. श्री नारायण देव शर्मा पुत्र कृष्ण कांत 2. श्री नलिनी बाला देवी 3. श्री भारती देवी पुत्री नरनारायण शर्मा 4. श्री हितेश तालुकदार 5. श्री सुभाष तालुकदार 6. श्री नागेश्वर तालुकदार पुत्र लोयन
				49	एन के-30	13.378	निजी	1. श्री घनश्याम चौधरी 2. रंजीत चौधरी 3. श्री प्रणब चौधरी पुत्र प्रियनाथ
				1752	एन के-88	1103.685	निजी	1. श्री भूमिदार दास पुत्र उत्सवन्दा 2. श्री खनिन्द्रा नाथ दास पुत्र भूमिदार 3. श्री हरेन्द्र कु. चौधरी पुत्र मानिक 4. श्री बिरज कु. तालुकदार पुत्र कृष्ण कांत 5. श्री भागीरथ मेघी पुत्र मानिक
				1753	एन के-88	535.12	निजी	1. श्री भूमिदार दास पुत्र उत्सवन्दा 2. श्री खनिन्द्रा नाथ दास पुत्र भूमिदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(5)मुगुडिया					
				653	एन के-53	2208.77	निजी	पुत्र स्व. शिका 2. श्री कृष्ण कांत महाजन पुत्र स्व. महोदर 3. श्री भूमिदारमहाजन पुत्र स्व. उत्सवचन्द 4. श्री प्रेमनाथ चौधरी पुत्र स्व. पेगु 5. श्री धीरेन चौधरी पुत्र अम्बु नाथ 6. श्री खनिन्द्रा चौधरी पुत्र महामाया 7. श्री चंद्र कांत तालुकदार पुत्र लखीकांत 8. श्री मधु तालुकदार 9. श्री मनोरम तालुकदार 10 श्री कैलाश तालुकदार 11. श्री थाणे तालुकदार पुत्र बाली 12. श्री मणी कांत तालुकदार 13. श्री कनेश्वर तालुकदार पुत्र लखी 14. श्री बिपिन तालुकदार 15. श्री उपिन तालुकदार 16. श्री फनी तालुकदार पुत्र देगी 17. श्री चित्रा रंजन पतगिरि 18. श्री हृदय पतगिरि
				665	के एम-252	656.192	निजी	1. मो. शाहिल अली 2. मो. मुस्लिम अली 3. मो. सकुर अली पुत्र शिलसन 4. मो. मतिउर रहमान पुत्र काला 5. मो. शाहिद अली 6. मो. जेल्ली अली 7. मो. निसान अली पुत्र जाहुर 8. श्री रंजित पतगिरि पुत्र स्व. दुर्गेश्वर
				662	के एम-269	361.206	निजी	1. मो. सिद्धकी शेख पुत्र मो. पूरम 2. मो. हासेर अली 3. मो. हबिबुर अली 4. मो. अतुर अली 5. मो. अहित अली पुत्र भोंदु 6. मो. अहलेद अली 7. मो. शिराज अली पुत्र सिद्धिक
				661	के एम-59	227.426	निजी	1. मो. हरमूज अली पुत्र रहिम 2. मो. सलेसु खातून पत्नी हरमजु
				901	एन के-53	1204.02	निजी	1. श्री हरमोहन बरूआ पुत्र लेखी 2. श्री बलिराम तालुकदार 3. श्री लखिकांत तालुकदार 4. श्री रबिराम तालुकदार 5. श्री दागीराम तालुकदार पुत्र घिके 6. श्री कृष्णकांत महाजन पुत्र महेश्वर 7. श्री भूमिदार महाजन पुत्र उत्तपल 8. श्री प्रेमनाथ चौधरी पुत्र पासु 9. श्री तरिणी पतगिरि पुत्र तनुराम 10. श्री धीरेन्द्र चौधरी पुत्र अम्बुराम 11. श्री खनिन्द्र चौधरी पुत्र महामाया 12. श्री प्रियनाथ चौधरी पुत्र पाण्डु 13. श्री जोगेश्वर तालुकदार पुत्र कृष्ण
				667		133.78	सरकारी भूमि	
				666	एन के-6	481.608	निजी	1. श्री हरिहर शर्मा पुत्र गीरी 2. श्री अबानी शर्मा पुत्र कृष्णकांत
				669	एन के-47	481.608	निजी	1. श्री रमेश मेधी 2. श्री माधव मेधी 3. श्री प्रताप मेधी पुत्र शांति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				670	एन के-50	321.072	निजी	1. श्री लबन्या पतगिरि 2. श्री गणेश पतगिरि पुत्र हरमोहन 3. श्री भवेन्द्र पतगिरि 4. श्री मदन पतगिरि पुत्र बाली
				671	एन के-16	187.292	निजी	1. श्री गोपी पतगिरि पुत्र जूजो
				663	एन के-7	187.292	निजी	1. श्री महेंद्र पतगिरि पुत्र कैलाश 2. श्री घनश्याम पतगिरि पुत्र जोखी 3. श्री नरेंद्र बर्मन पुत्र गणेश
				660	एन के-52	668.9	निजी	1. श्री हेमा पतगिरि पुत्र नितराम 2. श्री हरेंद्र खाताविर पुत्र धानु 3. श्री प्रबोध कालित पुत्र कामेश्वर 4. श्री परीक्षित पतगिरि पुत्र केशव 5. श्री भुवन च. तालुकदार पुत्र धानु 6. श्री अमृत्य पतगिरि पुत्र सोनेश्वर 7. श्री चित्रा खातानिर पत्नी हरेन्द्र 8. श्री भगवान खातानिर 9. श्री दुर्गेश्वर पतगिरि पुत्र धानु 10. श्री महेंद्र पतगिरि पुत्र कैलाश 11. श्री नरेंद्र बर्मन पुत्र गणेश 12. श्री बीजू चौधरी पत्नी नबिन
				658	एन के-24	668.9	निजी	1. श्री पतिराम पतगिरि 2. श्री गणेश्वर पतगिरि 3. श्री हेमचंद्र पतगिरि 4. श्री हरिचरण पतगिरि पुत्र नीलकण्ठ 5. श्री भवेन्द्र पतगिरि पुत्र बाली 6. श्री हरेन्द्र पतगिरि पुत्र धानु 7. श्री किस्तुराम पतगिरि पुत्र रामलती 8. श्री बिऊ चौधरी पत्नी नबिन
				657	एन के-50	1339.2	निजी	1. श्री लेबनया पतगिरि 2. श्री गणेश पतगिरि पुत्र हरमोहन 3. श्री भवेन्द्र पतगिरि 4. श्री मदन पतगिरि पुत्र बाली 5. श्री हामेन पतगिरि पुत्र किस्तुराम
				688	एन के-43	1230.776	निजी	1. श्री रामचरण तालुकदार 2. श्री रंगनाथ तालुकदार 3. श्री खरगेश्वर तालुकदार 4. श्री मोहन तालुकदार 5. श्री सहोदर पुत्र रेबा 6. श्री चक्रधर तालुकदार 7. श्री कृष्णकांत तालुकदार 8. श्री दामोदर तालुकदार पुत्र नालु 9. श्री भुपेन कलिता पुत्र प्रनेश्वर
				687	एन के-26	1070.24	निजी	1. श्री कनक चौधरी पुत्र मोहन 2. श्री रमजित चौधरी पुत्र स्व. कनक
				691	के एम-344	735.79	निजी	1. श्री लखेश्वर पतगिरि पुत्र मुकुन्द 2. श्री रूकमणि देका पुत्र धरनी
				692	एन के-28	307.694	निजी	1. श्री पदमदार देका 2. श्री तापेन देका 3. श्री मुकुल देका पुत्र चक्रधर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				693	एन के-2	2061.612	निजी	1. श्री ककोली ककोली पुत्री स्व. गगन 2. ध्रुवज्योति ककोली पुत्र स्व. गगन 3. श्री ज्योतिका ककोली पत्नी स्व. गगन
				659	एन के-33	66.89	निजी	1. श्री बंधुराम तालुकदार 2. श्री महोदर तालुकदार पुत्र स्व. गेंधोलु 3. श्री तनकेश्वर बर्मन पुत्र धर्मेश्वर 4. श्री भुवन तालुकदार पुत्र मणिराम 5. श्री कनक तालुकदार पुत्र मोहिराम 6. श्री अनिता देवी पत्नी धीरेन्द्र 7. श्री धीरेन्द्र शर्मा पुत्र खगेन्द्र 8. श्री अजित तालुकदार पुत्र बिजोय 9. श्री प्रतिवा तालुकदार पत्नी हरेन्द्र
				686	एन के-40	80.268	निजी	1. श्री हरेन्द्र शर्मा पुत्र महेश्वर 2. श्री मदन शर्मा 3. श्री दिम्बेश्वर शर्मा 4. श्री बसंत शर्मा पुत्र हाराकांत 5. श्री नरेन्द्र शर्मा 6. श्री सहदेव शर्मा 7. श्री नरेश शर्मा 8. श्री गणेश शर्मा पुत्र गर्ग शर्मा
				708		200.67	सरकारी भूमि	
				725	के एम-46	200.67	निजी	1. श्री गिरिन्द्र दत्ता पुत्र जन्मी दत्ता 2. श्री उग्रा पतगिरि 3. श्री प्रमोद पतगिरि पुत्र काला 4. श्री हरमोहन पतगिरि पुत्र धना 5. श्री प्राण बंधु पुत्र खरगेश्वर 6. श्री मनोरंजन पतगिरि पुत्र सर्वेश्वर 7. श्री दिपाली तहबिलदार पत्नी महानन्दा
				726	के एम-46	321.072	निजी	1. श्री गिरिन्द्र दत्ता पुत्र जन्मी दत्ता 2. श्री उग्रा पतगिरि 3. श्री प्रमोद पतगिरि पुत्र काला 4. श्री हरमोहन पतगिरि पुत्र धना 5. श्री प्राण बंधु पुत्र खरगेश्वर 6. श्री मनोरंजन पतगिरि पुत्र सर्वेश्वर 7. श्री दिपाली तहबिलदार पत्नी महानन्दा 8. श्री कुमुद तालुकदार पुत्र लाही 9. श्री लबहिता चौधरी पत्नी कुमुद
				728	के एम-22	321.072	निजी	1. श्री अती राम तालुकदार पुत्र अगहोना 2. श्री मनोरंजन पतगिरि पुत्र खरगेश्वर 3. श्री दिपाली तालुकदार पत्नी महानन्दा 4. श्री कुमुद तालुकदार पुत्र लाही

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				802	के एम-340	66.89	निजी	1. श्री धरनिधर कालिता पुत्र महोदर 2. श्री प्रबिन कलिता पुत्र देवी 3. श्री महेश्वर चौधरी पुत्र अबहोय 4. श्री जगेश्वर चौधरी पुत्र जूजू 5. श्री हरेश्वर दत्ता पुत्र शांति 6. श्री मदन पतगिरि 7. श्री लेबनया पतगिरि 8. श्री महेन्द्र पतगिरि पुत्र बाली 9. श्री गणेश पतगिरि पुत्र हरगोविंद 10. श्री बिपिन दास पुत्र प्रणेश्वर 11. श्री हरमोहन पतगिरि पुत्र धानु 12. श्री देउतराम अग्रवाल पुत्र हर दुआरी 13. श्री गजेन्द्र पतगिरि 14. श्री महेश पतगिरि पुत्र मुहुराम
				803	के एम-161	107.024	निजी	1. श्री धरनिधर चौधरी पुत्र महोदर 2. श्री दुलाल च. तालुकदार पुत्र दासी
				810	के एम-143	775.924	निजी	1. श्री दुलाल तालुकदार 2. श्री गोलक तालुकदार 3. श्री भुवन तालुकदार 4. श्री बसंत तालुकदार पुत्र दासी
				811	के एम-162	5114.596	निजी	1. श्री धानुराम पतगिरि पुत्र सुना 2. श्री प्रबिन महंथ पुत्र हलिराम 3. श्री गुलप तालुकदार पुत्र आत्माराम 4. श्री तरानी कांत दास पुत्र पाउराम 5. श्री अश्विनी दास पुत्र माधव 6. श्री महेन्द्र चौधरी पुत्र कालिघरण 7. श्री अकोनी तहबिलदार पत्नी रजनी 8. श्री दुलाल तालुकदार 9. श्री गोलक तालुकदार 10. श्री भुवन तालुकदार 11. श्री बसंत तालुकदार पुत्र दासी 12. श्री पतेश्वरी तहबिलदार पत्नी अमृत 13. श्री हरमोहन पतगिरि पुत्र धानु 14. श्री उपेन्द्र जीत तालुकदार पुत्र पुष्पराम 15. श्री चंद्र कु. पतगिरि पुत्र गणेश्वर 16. श्री तुलफाराम दास पुत्र नोरोराम 17. श्री हेम चंद्र तालुकदार पुत्र हाराकांत 18. श्री फुलेन तहबिलदार पुत्र भुगी 19. श्री किरण च. सिंह पुत्र तजमोनी 20. श्री महोदर कलिता पुत्र मानिक 21. श्री मुकुन्द तालुकदार
				808	के एम-19	535.12	निजी	1. श्री अम्बिका शर्मा 2. श्री आनन्द शर्मा पुत्र जगेश्वर
				787	के एम-342	107.024	निजी	1. श्री श्याम तालुकदार 2. श्री शिवा तालुकदार पुत्र रामचरण 3. श्री प्रिया तालुकदार 4. श्री अभय तालुकदार 5. श्री शंभु तालुकदार पुत्र शासो
				777		160.536	सरकारी भूमि	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				783		361.206	निजी	1. श्री दानेश्वर कलिता 2. श्री नबकांत कलिता 3. श्री रूपलयोती कलिता 4. श्री पंकज कलिता पुत्र जयकृष्णा
				784		227.426	निजी	1. श्री दानेश्वर कलिता 2. श्री नबकांत कलिता 3. श्री रूपलयोती कलिता 4. श्री पंकज कलिता पुत्र जयकृष्णा
			(6)राहधर बीडकला	47	के एम-29	494.986	निजी	1. श्री पवन चंद्र शर्मा 2. गोलक शर्मा पुत्र गणेश्वर 3. श्री हरिहरन शर्मा पुत्र गोपी 4. श्री सुनिता ककोती पत्नी दिम्बेश्वर 5. श्री हरिकृष्णा कलिता पुत्र दुर्गाचरण
				48	के एम-111	214.048	निजी	1. श्री उमेश च. शर्मा 2. श्री रजनी शर्मा 3. श्री तरुण शर्मा पुत्र पूरन 4. श्री प्रसन्न कलिता 5. श्री चक्रपाणि कलिता पुत्र खरगेश्वर 6. श्री हाहिराम कलिता पुत्र गेरा 7. श्री निधि कलिता पुत्र धानी 8. प्रभात शर्मा 9. श्री गिरिश शर्मा 10. श्री तारिणी शर्मा 11. श्री उपेन्द्र शर्मा 12. श्री धनराम शर्मा पुत्र बापूराम 13. श्री जितेन शर्मा 14. श्री बिरेन शर्मा 15. श्री सइलेन शर्मा पुत्र हरनाथ 16. श्री महेन्द्र शर्मा 17. श्री महेश्वर शर्मा 18. श्री भूपेन्द्र शर्मा पुत्र रामेश्वर 19. श्री केशव शर्मा पुत्र हबिचा 20. श्री केशव शर्मा 21. श्री लोकनाथ शर्मा 22. श्री सोमनाथ शर्मा पुत्र पाडु 23. श्री कामेश्वर कलिता 24. श्री रमानी कलिता 25. श्री रजनी कलिता 26. श्री खरानी कलिता 27. श्री सुरेन कलिता 28. श्री घानाकांत कलिता पुत्र अमोतिया
			(7)सराय साकला	449	एन के-156	260.871	निजी	1. श्री सत्यनाथ चौधरी पुत्र स्व. चंद्र नाथ 2. श्री मामोनी गोस्वामी पत्नी श्री उदय शर्मा 3. श्री उदय शर्मा पुत्र स्व. हरेन्द्र 4. श्री लंकेश्वर कलिता 5. श्री दामोदर कलिता पुत्र श्री बहादेश्वर कलिता
				450	एन के-156	244.1485	निजी	1. श्री सत्यनाथ चौधरी पुत्र स्व. चंद्र नाथ 2. श्री प्रतिभा बेजबोरा पत्नी सर्वानन्द सिल
				452	एन के-113	244.1485	निजी	1. श्री प्रतिभा चौधरी पत्नी सर्वानन्द सिल 2. धीरेन्द्रनाथ चौधरी पुत्र स्व. बालकुण्ड 3. श्री सीता चौधरी 4. श्री निरूपमा चौधरी पुत्री स्व. बालकुण्ड 5. श्री मानोमोती चौधरी पत्नी स्व. बैकुण्ठ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				453	एन के-27	234.115	निजी	1. श्री उदय शर्मा 2. श्री तरिणी शर्मा 3. श्री नाशयण शर्मा 4. श्री पतिन्द्र शर्मा 5. श्री तपेन शर्मा 6. श्री केशव शर्मा पुत्र स्व. कनक 7. श्री मधुश मोहन शर्मा पुत्र स्व. भुवनेश्वर
				457	एन के-28	307.694	निजी	1. श्री जामिनीप्रिया देवी पत्नी गोविन्दा 2. श्री पुलिन शर्मा 3. श्री मृणाल शर्मा 4. श्री हितेश शर्मा पुत्र स्व. धनेश्वर 5. श्री रिणु देवी पत्नी स्व. धनेश्वर 6. श्री रितेन्द्र शर्मा 7. श्री निरंजन शर्मा 8. श्री रंगमोहन शर्मा 9. श्री परेश शर्मा 10. श्री तिकेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. दीनानाथ
				458	एन के-124	280.938	निजी	1. सेई खयेन्द्र शर्मा 2. श्री मनोरंजन शर्मा 3. श्री फुलेन शर्मा पुत्र स्व. कृपानाथ 4. श्री पद्मिणी देवी पुत्री स्व. जिबेश्वर 5. श्री हेमलता देवी पुत्री स्व. उपेन्द्र 6. श्री गोपाल शर्मा 7. श्री दिलिप शर्मा 8. श्री फनिन शर्मा पुत्र स्व. सूर्यकांत 9. श्री गिरिजा देवी पत्नी स्व. सूर्यकांत 10. श्री फुलिन शर्मा पुत्र स्व. कृपानाथ
			(8)पटाचरकुची	518		70.2345	निजी	बालाजी सर्फिल ऑफिस
				601		143.8135	निजी	सड़क
				628		695.656	निजी	पशु चिकित्सालय
				627		535.12	निजी	1. श्री हरकृष्ण दास पुत्र रविराम
				626		347.828	निजी	1. श्री बिरेन्द्र कलिता 2. श्री भूपेन्द्र कलिता पुत्र सोनाराम 3. श्री बैकुन्त कलिता 4. श्री महेन्द्र कलिता पुत्र दीनानाथ 5. श्री मदन कलिता पुत्र मिहिराम 6. श्री धुबा कलिता पुत्र चंद्र कलिता 7. श्री तपेन चौधरी पुत्र चितरंजन
				625	के एम-60	508.364	निजी	1. श्री गिरिस गोस्वामी पुत्र लखीकांत 2. श्री कामख्या गोस्वामी 3. श्री तरुण गोस्वामी 4. श्री बिजोय गोस्वामी 5. श्री खजेन्द्र गोस्वामी पुत्र स्व. मोहिनी
				624	के एम-61	535.12	निजी	1. श्री रमेश च. गोस्वामी 2. श्री घरनी गोस्वामी पुत्र स्व. सोमनाथ 3. श्री शैलेन्द्र शर्मा 4. श्री दिमबेश्वर शर्मा पुत्र स्व. जिबेश्वर
				622	के एम-59	347.828	निजी	1. श्री भगवान गोस्वामी पुत्र स्व. लखीकांत 2. श्री कंदरणा कु. गोस्वामी 3. श्री मुकुल गोस्वामी 4. श्री हितेश गोस्वामी 5. श्री पिन्दु कु. गोस्वामी पुत्र धीरसर
				621	के एम-26	321.072	निजी	1. श्री आख्या कु. गोस्वामी पुत्र कामेश्वर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				620	के एम-62	321.072	निजी	1. श्री देवेन्द्र ना. गोस्वामी 2. श्री सुरेन्द्र गोस्वामी 3. श्री मुनिन्द्र गोस्वामी 4. पुत्र गर्ग गोस्वामी
				611		1056.862	निजी	निरीक्षण बंगला
				614		374.584	सरकारी भूमि	पुलिस थाना
				618		535.12	सरकारी भूमि	पुलिस थाना
				617		856.192	सरकारी भूमि	पुलिस थाना
				665		2743.89	सरकारी भूमि	नदी
				666	के एम-18	414.718	निजी	1. श्री फुलेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. देवेन्द्र
				704	के एम-1	267.56	निजी	1. श्री फुलेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. देवेन्द्र
				640		80.268	निजी	सड़क
				161	के एम-19	73.579	निजी	1. श्री लोहित च. दास पुत्र स्व. रंगमल 2. श्री महोदर गोस्वामी पुत्र स्व. केशव 3. श्री दिलिप शर्मा पुत्र स्व. कृष्ण कांत
				547	के एम-13	575.254	निजी	1. श्री लोहित च. दास 2. श्री कनक दास पुत्र स्व. रंगमल 3. श्री महोदर गोस्वामी पुत्र स्व. केशव 4. श्री बसंत पुत्र स्व. महेन्द्र
				543		93.646	निजी	1. श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. हरमोहन
				544		334.45	निजी	1. श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. हरमोहन
				541		2935.9265	निजी	1. श्री रेबोई रे पत्नी स्व. कलिकांत 2. श्री रेबोती रे 3. श्री दशरथ रे पुत्र स्व. किनाराम 4. श्री रतनेश्वर तालुकदार पुत्र स्व. महेन्द्र 5. श्री रमेश चंद्र हलोई 6. श्री परमेश हलोई 7. श्री परेश हलोई पुत्र गंगा राम
				542		642.144	निजी	1. श्री रेबोई रे पत्नी स्व. कलिकांत 2. दशरथ रे पुत्र स्व. किनाराम 3. श्री रतनेश्वर तालुकदार पुत्र महेन्द्र 4. श्री रेबोती रे पत्नी अरुण
				538		76.9235	निजी	1. श्री रमेश च. हलोई 2. श्री परमेश हलोई 3. श्री परेश हलोई पुत्र गंगा राम
				537		60.201	सरकारी भूमि	राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्यालय
				529		86.957	सरकारी भूमि	राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्यालय

[फा. सं. भाराप्र/13012/09/एनएएल-बिजनी/2004]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2005

S.O. 13(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 220 (E), dated the 10th February, 2005, issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th February, 2005, the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31 in respect of land stretch from km 982.00 to Km 1041.00 in the State of Assam;

And whereas the substance of the said notification was published in "The Assam Tribune" dated 12th March, 2005 and in "Asomiya Khabor" dated 11th March, 2005;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disposed of by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose:

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land with or without structures to be acquired on National Highway No 31 from
Km. 982.0 to Km. 1041.00 in Barpeta District, in State of Assam.

District-Barpeta

Sl. No.	Sub-Division	Circle	Village	Dag No.	Patta No.	Area of land to be acquired Sgm	Type of land	Name of Owners
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barpeta	(1) Barnagar	(1) Dahalapara	92 (B)	A.P.	361.206	Private	1. Sri Bhogiram Das 2. Sri Bhebel Ram Das S/o Phensu Das
				120 (B)	159	1874.32	Private	Sri Bhubheswar Das S/o Sh. Megh Dhar Das
				124 (B)		321.072	Government Land	
				125 (B)	180	535.12	Private	Sri Nandeswar Koch S/o Chandraa Koch
				126	A.P.	1339.2	Private	Sri Arbinda Koch S/o Kalata Koch
				127 (B)		535.12	Government Land	
				128 (B)		468.23	Private	Sri Surendra Ch. Das S/o Sri Khor Das
				129 (B)	153	1874.32	Private	1. Sri Prafulla Das 2. Sri Manmohan Das 3. Sri Tonuram Das S/o Chandicharan Das
				130 (B)	A.P.	334.45	Private	1. Sri Rupe Bala Das 2. Sri Putuli Bala Das 3. Sri Sabitri Bala Das 4. Sri Namati Wala Das S/o Mohan Das
				136 (B)		93.646	Government Land	
				138 (B)	A.P.	695.656	Private	Sri Umesh Ch. Das S/o Mohin Das
				139	A.P.	2315.794	Private	Sri Umesh Ch. Das S/o Mohin Das
				602 (B)	P.P.	347.828	Private	1. Sri Satyaban Das 2. Sri Monmohan Das 3. Sri Bhabananda Das S/o Umesh Das 4. Sri Kunjalata Das W/o umesh Das
				704 (B)	P.P.	267.56	Private	Sri Nandeswar Koch S/o Chandraa Koch
			(2) Dakhin Ganak Gari	28 (B)	282	307.694	Private	1. Sri Dharanidhar Das S/o Mohodar Das 2. Sri Khagendra Das S/o Rameshwar Das
				29 (B)	59	722.412	Private	1. Dhananjay Das S/o Sitaram Das 2. Sri Debendra Nath Das S/o Gajendra Das 3. Sri Rudreswar Sarma S/o Lt. Sidheswar Barman 4. Sri Karneswar Das S/o Sahiram Das 5. Sri Amarendra Nath Chakarbarti S/o Thakur Anukul Chakarbarti
				30 (B)	193	1432.846	Private	Sri Raben Deka S/o Upendra Deka
			(3) Uttar Ganak Gari	179	23	401.34	Private	1. Sri Dina Nath Dja 2. Sri Aswini Kr. Oja 3. Sri Prafulla Ch. Dja 4. Sri Sushen Oza 5. Sri Nabaram Oja 6. Sri Ghanasyam Das

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				180	23	321.072	Private	1. Sri Dinanath Oja 2. Sri Shrini Kr. Oja 3. Sri Prafulla Ch. Oja S/o Keshab Das 4. Sri Sushen Kr. Oja 5. Sri Nabaram Oja S/o Ohiren Oja 6. Sri Tarani Oja S/o Lt. Bolai Oja 7. Sri Ghanasyam Das S/o Lt. Niroram Das
			(4)Nij Damaka	597	75	254.182	Private	1. Sri Naranarayan Medhi 2. Sri Dhaneswar Medhi 3. Sri Kanak Ch. Medhi 4. Sri Jagadish Medhi S/o Lt. Gando Medhi
				245	56	682.278	Private	1. Sri Nareswar Das 2. Sri Sarbeswar Das 3. Sri Upendra Das S/o Lt. Krishnakanta
				244	163	1633.516	Private	Sri Dharmeswar Medhi S/o Gando Medhi
				247	75	575.254	Private	1. Naranarayan Medhi 2. Sri Dhaneswar Medhi 3. Sri Kanak Ch. Medhi 4. Sri Jagadish Medhi S/o Lt. Gando Medhi
			(5)Bandarkhowa	150	P.P	642.144	Private	Sri Gando Ram Das S/o Kohiram Das
				152	P.P	535.12	Private	1. Sri Rabin Das 2. Sri Kapindra Das 3. Sri Pares Das S/o Lt. Dibakar Das
				198		307.694	Government Land	
				199		361.206	Government Land	
				200		361.206	Private	1. Sri Ramjit Das 2. Sri Haricharan Das 3. Sri Parman Das 4. Sri Bhogiram Das 5. Sri Kamaleswar Das S/o Bhushan Ch. Das
				201	P.P	441.474	Private	Sri Mojaram Das S/o Damoho Das
				202		441.474	Government Land	
				203		321.072	Government Land	
				204	P.P	307.694	Private	1. Sri Paneshwar Das 2. Sri Dhireswar Das 3. Sri Thaneswar Das 4. Sri Gandaru Das S/o Sh. Nauram Das
				209	P.P	107.024	Private	Sri Hariram Das S/o Dri Mitharam Das
				272	P.P	414.718	Private	1. Sri Ramjit Das 2. Sri Haricharan Das 3. Sri Parman Das 4. Sri Bhogiram Das 5. Sri Kamaleswar Das S/o Bhushan Ch. Das
				374	P.P	347.828	Private	Sri Dhaneswar Das S/o Ramo Saud
				400		294.316	Government Land	
				401	P.P	374.584	Private	Sri Dhendu Bala Das W/o Hariram
				315		2008.1	Government Land	
				316		13392	Government Land	
				325		802.68	Government Land	
				326		869.57	Government Land	
			(6)Balabhita	62	22	53.512	Private	Sri Sukur Ali S/o Lt. Ashan Ali
				63	27	1177.264	Government Land	
				64	4	963.216	Private	Sri Kashicharan Das S/o Gurudayal
				65	4	668.9	Private	Sri Kashicharan Das S/o Gurudayal Das

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				66	4	481.608	Private	Sri Kashicharan Das S/o Gurudayal Das
				67	13	1070.24	Private	1. Nagendra Ch. Rai 2. Upendra Ch. Rai S/o Lt. Surendra Ch. Rai
				72	91	802.68	Private	1. Sri Nagendra Ch. Rai 2. Sri Upendra Ch. Rai S/o Lt. Surendra Ch. Rai
				73	49	107.024	Private	1. Sri Nakhak Sarkar S/o Sh. Bhabesh 2. Sri Lal Md. Anchari S/o Husain Ali 3. Sri Nagendra Ch. Rai 4. Sri Upendra Ch. Rai S/o Lt. Surendra Ch. Rai
			(7) Barpeta Road Town	1879	432	200.67	Private	Sri Prafulla Kr. Khyetna S/o Manik Ch. Khyetria
				1507	382	133.78	Private	1. Sri Narayan Khyetna 2. Sri Gandhiram Khyetria 3. Sri Bharati Khyetria 4. Sri Sarathi Khyetria S/o S/o Harekrishna Khyetria
				1514	191	40.134	Private	Sri Gobinda Tilak Das S/o Sri Ganga Charan Das
				1876	P.P	133.78	Private	Oil India Ltd.
				1873	P.P	321.072	Private	Oil India Ltd.
				1291	P.P	173.914	Government Land	
				1861	P.P	187.292	Private	Oil India Ltd.
				1570	P.P	361.206	Private	Oil India Ltd.
				1857	P.P	816.058	Private	Oil India Ltd.
				1582	603	267.56	Private	Sri Mahabir Prasad Mour S/o Sh. Ganpat Mour
				1581	603	147.158	Private	Sri Mahabir Prasad Mour S/o Sh. Ganpat Mour
				1589	789	642.144	Private	Sri Babulal Mour S/o Sh. Ganpat Mour
				1590	846	588.632	Private	Sri Janardan Kalita
				1592	848	896.326	Private	1. Sri Janardan Kalita S/o Umakanta Kalita 2. Sri Bharat Chandra Kalita 3. Sri Ramani Kalita 4. Sri Keshab Kalita S/o Lt. Harish Ch. Kalita
				2032	982	829.436	Private	1. Sri Ramesh Ch. Das S/o Lekhram Das 2. Sri Indreshwar Das S/o Damodar Das
				1593		294.316	Private	
				1682	935	842.814	Private	Sri Basanta Prasad Brahamchari S/o Hariprasad
				1683	516	93.646	Private	1. Sri Basant Prasad Brahamchari S/o Hariprasad 2. Smt. Hrinmoyee Brahamchari W/o Gajendra
				1969	516	53.512	Private	1. Sri Basant Prasad Brahamchari S/o Hariprasad 2. Smt. Hrinmoyee Brahamchari W/o Gajendra
				1699	749	227.426	Private	Sri Surendra Mohan Rai S/o Purna Ch. Rai
				1998		535.12	Government Land	
				1702	P.P	66.89	Private	1. Sri Sunil Basak S/o Janaki Lal 2. Sri Modhusudan Das S/o Kashinath Das
				1712	383	80.268	Private	1. Sri Nabin Ch. Das S/o Mohiram 2. Sri Kusum Kr. Das W/o Nabin Chan Saraugi
				1713	384	133.78	Private	1. Sri Ninna chan Saraugi S/o Sampalal 2. Sri Satyaban Sarma S/o Gangaram

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1714	384	160.536	Private	1. Sri Ninna chan Saraugi S/o Sampalal
				1715	98	187.292	Private	Sri Umananda Choudhury S/o Hariya Ch.
				1948	747	214.048	Private	1. Sri Mahendra Lal Saha 2. Sri Modan Mohan Saha S/o Gopal
				1932	799	254.182	Private	Sri Satya Narayan Agarwala S/o Gopal Chandra
				1931	800	66.89	Private	1. Sri Surendra Mohan Saha S/o Gopal Chandra 2. Sri Rabindra Mohan Saha S/o Panchanand
				1576	P.P	535.12	Private	Sri Sadananda Konch S/o Ramsundar
				1679	694	53.512	Private	Sri Rabinath Dev Sarma S/o Dhirunath Sarma
			(8)Jakhallirpar	17	19	40.134	Private	1. Sri Rohini Kr. Das 2. Sri Akan Ch. Das S/o Lt. Modhusudan Das 3. Sri Monomati Das W/o Lt. Modhusudan Das 4. Hanif Ali Ahmed 5. Sri Umar Ali Ahmed S/o Lt. Alihas Uahed
				18	118	107.024	Private	1. Sri Khanindra Nath Das S/o Lt. Dharendra Nath Das 2. Sri Kushadhar Das S/o Umakanta Kakati
				19	53	682.278	Private	Sri Motilal Devnath S/o Gopinath
				20	2	441.474	Private	1. Sri Uma Devi W/o Maliram 2. Sri Sabi Bala Pathak W/o Damodar
				21	1	909.704	Private	1. Sri Gobinda Ram Agarwala S/o Nararam 2. Sri Sankarlal Choudhury S/o Marang Rai
				23	154	294.316	Private	Assam Auto Agency H.O. Shillong
				24	154	214.048	Private	Assam Auto Agency H.D. Shillong
				25	50	535.12	Private	1. Sri Sibanath Sarma S/o Lakhan 2. Sri Sardar Gurumai Singh S/o Sardar Niranjani 3. Sri Suraj Prasad Saud S/o Ramiakhan 4. Sri Ranglal Saud S/o Bhagan Ram 5. Sri Diganta Das 6. Sri Nishanta Das S/o Lt. Tarini Das 7. Smt. Padmini Das W/o Lt. Tarini Das 8. Sri Narayan Karmakar S/o Lt. Benimadhab 9. Sri Gopal Karmakar S/o Narayan Karmakar 10. Smt. Bina Devi Das W/o Joginanda Das 11. Dr. Monsur Rahman Sikdar S/o A. Gani Sikdar 12. Sri Chandra Mohan Gayan S/o Lt. Chandramohan Gayan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				292	50	240.804	Private	1. Sri Diganta Das 2. Sri Nishanta Das S/o Lt. Tarani Das 3. Padmini Das W/o Lt. Tarani Das 4. Sri Abatar Singh S/o Lt. Chahab Singh 5. Sri Jashawanta Kour W/o Lt. Chahab Singh 6. Md. Chahabul Haque S/o Lt. Achimuddin
			(9)Gobinda pur	56	P.P	361.206	Private	1. Sri Dijendra Chetry S/o Birendra 2. Sri Ajit Kr. Singh 3. Sr. Tiken Kr. Singh 4. Sri Sushil Kr. Singh 5. Sri Kunjalat Singh S/o Reghu Singh 6. Smt. Kunti Bala Chetry W/o Reghu Singh 7. Sri Chandra Kishore 8. Sri Himmat Prasad Chetry 9. Sri Jyotirmay Chetry S/o Tribhuvan Chetry 10. Smt. Sumitra Chetry W/o Tribhuvan Chetry
				58	P.P	548.498	Private	Sri Md. Ali Sekh S/o Ashan Ullah
				59/342	P.P	1137.13	Private	1. Sri Hatem Ali 2. Sri Jalaluddin 3. Sri Altat Ali S/o Mohar Haji
				85/344	P.P	321.072	Private	1. Sri Rajindra Brahma S/o lauthop 2. Sri Gajen Brahma 3. Sri Najin Brahma 4. Sri Nabin Brahma S/o Dadu Brahma
		(2) Barpeta	(1)Howly Town	105	84	120.402	Private	1. Chandan Chanran Das S/o Balicharan 2. Sri Jagadish Kumar S/o Late Sitaram 3. Sri Anjali Das Choudhury W/o Late Donaram 4. Sri Dipankar Das S/o Late Donaram 5. Sri Pramod Nath S/o Girish Nath
				106	321	602.01	Private	1. Sri Sarbananda Das 2. Sri Paramananda Das S/o Molokha Ram Das
				116	634	40.134	Private	1. Sri Rajmohan Choudhury S/o Dula 2. Sri Chakradhar Das S/o Ramcharan 3. Sri Subhadra Bala Das W/o Harendra Nath Das 4. Sri Girija Mohan Choudhury 5. Sri Jitendra Choudhury 6. Sri Monoranjan Choudhury 7. Sri Nripendra Choudhury S/o Rajmohan Choudhary 8. Sri banamali Das S/o Harendra 9. Dr. Hanif Ullah S/o Md. Sagar Ali
				117	107	628.766	Private	1. Sri Taani Kanta Das S/o Dhanaram 2. Sri Rajesh Das S/o Lt. Gangadhar Das
				369	181	120.402	Private	Sri Kanak Ch. Chaloi S/o Gondoram
				383	97	93.646	Private	Sri Chandra Mohan Saha S/o Rohini Kanta

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1731	135	387.962	Private	1. Sri Kumatiram Das 2. Sri Kanak Das 3. Sri Nakui Chandra Das S/o Sukna Das 4. Sri Prabhat Das 5. Sri Bhaghirath Das S/o Rajuram 6. Sri Dhanan Nath S/o Girish Nath
				382	135	93.646	Private	1. Sri Kumatiram Das 2. Sri Kanak Das 3. Sri Nakui Chandra Das S/o Sh. Sukna Das 4. Sri Prabhat Das 5. Sri Bhaghirath Das S/o Rajuram 6. Sri Taruni Bala Das W/o Thanewar Das 7. Sri Monomohan Das S/o Ghanakanta
				381	84	789.302	Private	Sri Chandrakanta Bhattacharyya S/o Loknath
				1639	668	26.756	Private	1. Sri Radharaman Saha. 2. Sri Babulal Saha S/o Hiratal 3. Sri Narayan Ch. Saha S/o Brindaban 4. Sri Jatindra Mohan Saha S/o Mahindra 5. Sri Dayal Ch. Saha S/o Mushiram 6. Sri Surendra Saha S/o Saru 7. Sri Kalinath Saha S/o Makhan 8. Sri Kanailal Saha S/o Jadev 9. Sri Jogesh Karmakar S/o Adhar 10. Sri Nani Bala Saha W/o Chandramohan 11. Sri Dharendra Kr. Saha S/o Syamiai 12. Sri Mangal Ch. Saha S/o Gupeswar 13. Sri Pashu Karmakar S/o jadunath 14. Sri Jogendra Saha 15. Sri Sudhir Saha
				1618	710	40.134	Private	Sri Gunin Ch. Das S/o Lt. Chanducharan Das
				1617	4701	40.134	Private	Sri Sunil Kr. Pathak S/o Bhuban Ch. Pathak
				1616	243	227.426	Private	1. Sri Chanmohan Saha S/o kanthu 2. Sri Sunil Kr. Pathak S/o Bhuban Ch. Pathak
				1615	613	107.024	Private	Secretary Association of Small Industry, Howli
				1614	544	107.024	Private	1. Sri Phanindra Mohan Chaha S/o Gopeswar 2. Sri Charan Kr. Saha 3. Sri Parimal Saha 4. Sri Subhash Saha 5. Sri Uttam Saha 6. Sri Pradip Saha 7. Sri Swadip Saha S/o Lt. Mangal Saha
				1613	702	60.201	Private	Sri Sudhir Ch. Saha S/o Sashimohan
				1612	758	13.378	Private	Sri Bhabhani Bala Saha W/o Jogesh Ch. Saha
				558		2275.66	Government Land	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(2) Harbhata	702	170	187.292	Private	1. Sri mannar Ali Na 2. Sri Chaan Miya Na 3. Sri Sona Miya Na 4. Sri Paal Miya na S/o Gpher Ali
			(3) Kaljar	703	170	254.182	Private	1. Sri Mannar Ali Na 2. Sri Chaan Miya Na 3. Sri Sona Miya Na 4. Sri Paal Miya na S/o Gpher Ali
				787	26	294.316	Private	Sri Abed Ali Miya S/o Dukhl Miya
				788	26	93.646	Private	Sri Abed Ali Miya S/o Dukhl Miya
				843		1740.54	Government Land	
				576	1NK	454.852	Private	1. Sri Durlav Ch. Khatoniar 2. Sri Satish Ch. Khatonia 3. Sri Purna Ch. Khatonia S/o Maheswar
				578	1NK	147.158	Private	Sri Upen Khatoniar S/o Kamala
				160	1NK	160.536	Private	Sriudhab Ch. Balshnab S/o Sudhana
				443	1NK	829.436	Private	Sri Sudha Kalita S/o Usha
				444	1NK	976.594	Private	1. Srimati Moti Bala W/o Autha 2. Srimati Sabitri Bala W/o Karuna
				446	1NK	749.168	Private	Sri Dinanath Kalita S/o Sana
				448	1NK	307.694	Private	1. Srimati Moti Bala W/o Autha 2. Srimati Sabitri Bala W/o Karuna
				433	1NK	80.268	Private	Sri Tarasubhan Adhikari S/o Baikuntha
				553	1NK	2275.66	Private	Sri Tula Miya S/o Ahmed Hussain
				554	1NK	816.058	Private	Sri Ashan Ali S/o Rafet Ullah
				555	1NK	2583.354	Private	1. Sri kandhar Kha S/o Biran Kha 2. Sri Naytan Nech W/o Afshar Ali 3. Shri shadul Rahman S/o Abdur Chakur
				556	1NK	789.302	Private	1. Sri Saukar Ali 2. Sri Golam Sorowar 3. Sri Rup Molla S/o Khushimuddin
				1164	1NK	1499.736	Private	Sri Prafulla Bayan S/o Nabin
	Bajali	(1) Sarupeta	(1) Haripur	560		909.704	Private	Sri Rajani Kanta Talukdar Sri Mandalal Talukdar Sri Madhab Ch. Talukdar Sri Bhupen Talukdar Sri Kamal Talukdar Sri Sunil Talukdar Sri Ranjit Talukdar S/o Maheswar
				561		321.072	Private	Sri Mukunda bhayan S/o Late Narindra
				562	51	280.938	Private	1. Sri Prabin Talukdar S/o Late Dhaneswar 2. Sri Rina Talukdar W/o Late Mahendra Talukdar
				559		107.024	Private	Pachim Bhabanipur Smabaya Samity Ltd.
			(2) Kurubaha Pather	83M		3681.75	Government Land	
			(3) Rajakhat	340		535.12	Government Land	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				341		802.68	Government Land	
				342		535.12	Government Land	
				347		535.12	Government Land	
				241		535.12	Private	1. Md. Abdul Malek S/o Md. Abdul 2. Rafique Ahmed S/o Md. Islam
				240		2141.68	Private	1. Md. Ismail Hussain S/o Md. Siddik Hussain 2. Md. Hussain Ali 3. Md. Iman Ali S/o Mangala 4. Md. Budu Miya S/o Subdul Miya
				237		267.56	Private	Md. Ishmail Hussain S/o Hamid
				236		2329.172	Private	1. Hazarat Ali S/o Hamid 2. Arjun Ch. Bairagi S/o Rajmohan Bairagi 3. Md. Phakharuddin S/o Kalimuddin 4. Mst. Jahura Khatun W/o Md. Saleem
				245		2678.4	Private	Sri Arjun Bairagi S/o Ramdayal
				246		1472.98	Private	Sri Arjun Bairagi S/o Ramdayal
				235		133.76	Private	Md. Abdul Kader Ali S/o Nabl Hussain
				234		1406.09	Private	Md. Abdul Kader Ali S/o Nabl Hussain
				247		401.34	Private	Fazlur Rahman S/o Ajijul Rahman
				248		6698	Private	Fazlur Rahman S/o Ajijul Rahman
				249	Eksana	267.56	Private	Ohed Ali Shah S/o Ahmad Ali
				251		133.78	Private	Allmuddin S/o Lt. Manik
				281	25	1043.484	Private	Mubarak Ali S/o Miyabaks
				278	Eksana	668.9	Private	Miss Diwara Begam W/o Abdul Samad
				307	25	401.34	Private	Mubarak Ali S/o Miyabaks
				308	Eksana	4017.6	Private	Hajrat Ali Sheikh S/o Ushman Nabab Ali
				309	33	0		1. Janmohan Mandal S/o Raj Mohan 2. Mirjanur Rahman S/o Mubarak Ali
				316	34	1339.2	Private	1. Mirjanur Rahman S/o Mubarak Ali 2. Janmohan Pal S/o Lt. Biswanth 3. Isahaq Ali S/o Mubarak 4. Abubakkar Siddik S/o Mafizuddin
				319	31	4017.6	Private	1. Akash Ali S/o Araj 2. Mallika Bhanu W/o Akash Ali 3. Abdul Kalam S/o Mubarak 4. Abubakkar Siddik S/o Maffijuddin 5. Janmohan Mandal S/o Rai Mohan 6. Isahaq ali s/o Mubarak
				320	32	1446.224	Private	Mohan Sarka S/o Mathura Sarkar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				322	20	1472.98	Private	1. Mirjanur Rahman 2. Ahmed Hajef Ali 3. Ishakat Ali 4. Idrish Ali 5. Abdul Kalam 6. Nurul Islam 7. Abdul Kashem 8. Hasem Ali S/o Mubarak Ali
				323	20	2945.96	Private	1. Mirjanur Rahman 2. Abdul Hajef Ali 3. Ishaq Ali 4. Idrish Ali 5. Abdul Kalam 6. Nurul Islam 7. Abdul Kashem 8. Hasem Ali S/o Mubarak Ali
				250	26	535.12	Private	1. Md. Karim Sheikh 2. Md. Mahmud Sheikh S/o Sabed Sheikh 3. Amina Khatun W/o Jahur Ali 4. Habbeja Khatun W/o Jahur Ali 5. Khadeja Bibi W/o R. Husain 6. Khejuda Bibi W/o Sabed Ali 7. Alimuddin S/o Manik
				276		668.9	Government Land	
				282	26	2275.66	Private	1. Faziur Rahman 2. Majbur Rahman S/o Ajijul Rahman
				283	1	1339.2	Private	Hasan Ali S/o Ibrahim Ali
				284	5	267.56	Private	Pabitra Sarma S/o Monohan Sarma
				285	42	133.78	Private	1. Abdul Khalek 2. Abdul Barek S/o Abdul Samad
				280	8	1070.24	Private	1. Faziur Rahman 2. Majbur Rahman S/o Ajijul Rahman
				279	8	535.12	Private	Kuddush Ali S/o Abdul Gaphur
				324	Eksana	3200.142	Private	1. Umar Ali 2. Ishak Ali S/o Sukur Dewani
				358		1339.2	Government Land	
				359		1339.2	Government Land	
			(4)Tangia	156		535.12	Private	1. Sri Krishakanta Barman 2. Bishnu Kanta Barman S/o Jitendra Barman
				154	12	535.12	Private	1. Sri Nishikanta Barman 2. Sri Atul barman 3. Sri Ruhini Barman S/o Nabin Barman
				153	12	401.34	Private	1. Sri Atul Barman 2. Sri Nishikanta Barman 3. Sri Anil Barman S/o, D/o Nabin Barman
				151	11	267.56	Private	1. Sri Kiran Ch. Barman S/o Nabin Barman 2. Sri Atul Barman S/o Nabin Barman 3. Smt. Renuka Barman D/o Bipin
				152	11	267.56	Private	1. Sri Kiran Ch. Barman S/o Nabin Barman 2. Sri Atul Barman S/o Nabin Barman 3. Smt. Renuka Barman D/o Bipin

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				150		535.12	Private	Sri Renuka Barman D/o Bipin
			(5)Charaipara	834	115	535.12	Private	Sri Barun choudhary S/o Soraram
				823	229	1339.2	Private	1. Sri Upendra Rai 2. Sri Tarun Rai 3. Sri Abhabendra Rai S/o Mini 4. Sri Khagendra Rai 5. Sri Ashwini Rai 6. Sri Ramesh Rai S/o Sishu 7. Sri Girish Rai 8. Sri Prafulla Rai S/o Mangai 9. Sri Ratneshwar Rai 10. Sri Bhabesh Rai S/o Dhiro 11. Smt. Snadihya Sahu W/o Laksha Sahu 12. Sri ganesh Sarma S/o Lt. Jagannath Sarma
				817	283	668.9	Private	1. Sri Ananta Kakoti 2. Sri Ajit Kakoti S/o Keshab Kakoti 3. Sri Homeswar Choudhary 4. Sri janardan Choudhary
				818	K-Eksana	133.78	Private	1. Sri Rabin Das 2. Sri Gopesh Choudhary 3. Sri Amarendra Choudhary S/o Girish 4. Smt. Khiroda Choudhary W/o Debendra
				815	K-Eksana	775.924	Private	1. Sri Rabin Das 2. Sri Gopesh Choudhary 3. Sri Amarendra Choudhary S/o Girish 4. Smt. Khiroda Choudhary W/o Debendra
				814	K-Eksana	802.68	Private	1. Sri Ananta Kakoti 2. Sri Ajit Kakoti S/o Keshab Kakoti 3. Sri Homeswar Choudhary 4. Sri janardan Choudhary S/o Keshab Choudhary
				812		1070.24	Government Land	
				811		1339.2	Govomment Land	
				803	KM-100	1270.91	Private	1. Sri Harindra Kalita S/o Pithu 2. Sri girindra kalita S/o Aatua
				802	KM-100	2879.07	Private	1. Sri Harindra Kalita S/o Pithu 2. Sri girindra kalita S/o Aatua
				805	Km-32	802.68	Private	Sri Harakanta Kalita S/o Bhugo Kalita
				816		668.9	Government Land	
				800		468.23	Government Land	
				824		2503.086	Government Land	
				825		1606.76	Government Land	
				826		2008.1	Government Land	
		(2) Bajali	(1)Dumuria	14/630		428.096	Government Land	
				680		1513.114	Government Land	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8	KM-13	896.326	Private	1. Smt. Saraswati Das W/o Rajanikanta Das 2. Sri Abani Kr. Sarma 3. Sri Prakash Kr. Sarma 4. Sri Naba Kr. Sarma 5. Sri Dhruba Kr. Sarma S/o Lt. Krishna Kanta 6. Sri Dilip Sarma 7. Sri Phanindra Sarma 8. Sri Dhamidhar Sarma 9. Sri Manoj Kr. Sarma S/o Lt. Sarbeswar 10. Sri Khanin Sarma 11. Sri Monoranjan Sarma 12. Sri Hiramba Sarma S/o Lt. Sashi 13. Smt. Dipali Sarma 14. Sri Hirak Sarma 15. Sri Mridul Sarma S/o Lt. Binod 16. Smt. Malita Sarma D/o Lt. Binod 17. Sri Debapratim Das S/o Basanta Das 18. Smt. Barnali Choudhary D/o Lt. Achyut
				9	KM-13	615.388	Private	1. Sri Abani Kr. Sarma 2. Sri Prakash Kr. Sarma 3. Sri Naba Kr. Sarma 4. Sri Dhruba Kr. Sarma S/o Lt. Krishna Akanta 5. Sri Dilip Sarma 6. Sri Phanindra Sarma 7. Sri Dhamidhar Sarma 8. Sri Manoj Kr. Sarma S/o Lt. Sarbeswar
			(2)Pathala			173.914	Government land	
				2	KM-37	602.01	Private	1. Md. Taher Ali S/o Anandi Ali 2. Sri Jaynal Ali 3. Sri Mohar Ali S/o Anandi Ali 4. Sri Chitra Das W/o Sri Nikunja
				3	KM-88	294.316	Private	Sri Chitra Das W/o Sri Nikunja
				5	KM-10	428.096	Private	1. Sri Ratan Lal Agarwalla S/o Bhagwan Agarwalla 2. Sri Arabinda Kakoti S/o Neula 3. Sri Laksheswar kalita S/o Ratiram 4. Sri Hemada Kalita D/o Sri mohi Chandra 5. Sri Chitra Das W/o Sri Nikunja
				6	KM-84	294.316	Private	1. Sri Ratan Lal Agarwalla S/o Bhagwan Agarwalla 2. Sri Arabinda Kakoti S/o Neula 3. Sri Laksheswar kalita S/o Ratiram 4. Sri Hemada Kalita D/o Sri mohi Chandra
				7	KM-111	842.814	Private	1. Sri Ratan Lal Agarwalla S/o bhagwan Agarwalla 2. Sri Sushil Kr. Jalowa S/o S/o Bhagwan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8	KM-75	361.206	Private	1. Sri Madan Kalita 2. Sri Sanatan Kalita 3. Sri Arabinda Kalita S/o Puwaram 4. Sri Pushpa Agarwalla 5. Sri Ratan Lal Agarwalla 6. Sri Sushil Kr. Agarwalla S/o Bhagwan
			(3) Nalana	143	KM-4	1096.996	Private	1. Sri Harendra Nath Kalita S/o Prithu 2. Sri Girindra Nath kalita S/o Almaram 3. Sri Parikshit Kakoti 4. Sri Laksheswar kakoti S/o Harakanta 5. Sri Nripen Kakoti S/o Gangaram 6. Sri Mathura Borkakoti S/o golok
				146	KM-55	2008.1	Private	1. Sri Mahodar Khatinier S/o Bhugo 2. Sri Prafulla Kakoti S/o Janaka 3. Sri Parikshit Kakoti 4. Sri Laksheswar Kakoti S/o Harakanta 5. Sri Nripen kakoti S/o Gargaram 6. Sri mathura Borkakoti S/o Golok
				147	KM-213	1606.76	Private	1. Sri mahodar Khatinier S/o Bhugo 2. Sri Parikshit Kakoti 3. Sri Laksheswar Kakoti S/o Harakanta 4. Sri Nripen kakoti S/o Gargaram
				148	KM-38	909.704	Private	1. Sri Parikshit kakoti S/o Lt. Harakanta
				149	KM-38	749.168	Private	1. Sri Parikshit kakoti S/o Lt. Harakanta
			(4) Pathsala Town	28	NK-88	153.847	Private	1. Sri Bhumidar Das S/o Utsav 2. Sri Tara Prasad Das S/o Bhumidar 3. Sri Girish Ch. Roy S/o mangala 4. Sri Ginja Kr. Talukdar S/o Golok Talukdar 5. Sri Rajen Roy S/o Phatik 6. Sri Mohodar Roy 7. Sri Ananda Roy S/o Bapuram 8. Sri Pradip Talukdar S/o Jogendra
				38	NK-69	100.335	Private	1. Sri Naranarayan Sarma 2. Sri Chandra kanta Sarma 3. Sri Harendra nath Sarma 4. Sri Dinanath Sarma S/o Krishna kanta 5. Sri Munindra nath kalita S/o Anandi Kalita
				39	NK-56	80.268	Private	1. Sri Munindra Nath Kalita S/o Anandi Kalita 2. Sri Dakhya Kr. Das S/o Surath Patgiri 3. Sri Rabindra Nath Patgiri S/o Surat Patgiri 4. Sri Surendra Nath Sarma S/o Dinanath

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				40	NK-35	80.268	Private	1. Sri Pabitra Sarma 2. Sri Biren Sarma 3. Sri Bimal Sarma S/o Chandra Kanta
				43	NK-113	80.268	Private	1. Sri Monoranjan Sarma 2. Sri Gagan Sarma 3. Sri Girija Sarma 4. Sri Karuna Sarma S/o Harendra 5. Sri Kalyani Choudhary W/o Akhya
				44	NK-11	80.268	Private	1. Sri Kalinath Deva Sarma S/o Krishna Kanta 2. Sri Chandan Sarma S/o Sarat Sarma 3. Sri Nityananda Sarma 4. Sri Tarini Sarma 5. Sri Gopal Sarma S/o Lalit 6. Sri Kalyani Choudhury W/o Akhya 7. Sri Dhrubajit Deva Sarma 8. Sri Gunajit Deva Sarma 9. Sri Satyendrajit Deva Sarma S/o Nityananda
				47	NK-107	80.268	Private	1. Sri Chandan Kr. Sarma S/o Sarat Sarma 2. Sri Tarini Sarma 3. Sri Nityananda Sarma 4. Sri Gopal Sarma S/o Lohit 5. Sri Kalyani Choudhury W/o Akhya 6. Sri Dhrubajit Deva Sarma 7. Sri Gunajit Deva Sarma 8. Sri Satyendrajit Deva Sarma S/o Nityananda
				48	NK-68	387.962	Private	1. Sri Narayan Dev Sarma S/o Krishna Kanta 2. Sri Nalini Bala Devi 3. Sri Bharati Devi D/o Naranrayan Sarma 4. Sri Hitesh Talukdar 5. Sri Subhas Talukdar 6. Sri Nageswar Talukdar S/o Layan
				49	NK-30	13.378	Private	1. Sri Ghanshyam Choudhury 2. Ranjit Choudhury 3. Sri Pranab Choudhury S/o Priyanath
				1752	NK-88	1103.685	Private	1. Sri Bhumidar Das S/o Utsavananda 2. Sri Khanindra nath Das S/o Bhumidar 3. Sri Harendra Kr. Choudhury S/o Manik 4. Sri Biraj Kr. Talukdar S/o Krishna Kanta 5. Sri Bhaghirath Medhi S/o Manik
				1753	NK-88	535.12	Private	1. Sri Bhumidar Das S/o Utsavananda 2. Sri Khanindra nath Das S/o Bhumidar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(5)Muguria	653	NK-53	2208.77	Private	S/o Late Sika 2. Sri Krishna Kanta Mahajan S/o Late Mohodar 3. Sri Bhumidar Mahajan S/o Late Utsavananda 4. Sri Premnath choudhury S/o Late Pegu 5. Sri Dhiren Choudhury S/o Ambu Nath 6. Sri Khanindra Choudhury S/o Mahamaya 7. Sri Chandra Kanta Talukdar S/o Lakhikanta 8. Sri Madhu Talukdar 9. Sri Monoram Talukdar 10. Sri kailash Talukdar 11. Sri Thane Talukdar S/o Bali 12. Sri Mani Kanta Talukdar 13. Sri Kanteswar Talukdar S/o Lakhi 14. Sri Bipin Talukdar 15. Sri Upin Talukdar 16. Sri Phani Talukdar S/o Degi 17. Sri Chitra Ranjani Patgiri 18. Sri Hriday Patgiri
				665	KM-252	856.192	Private	1. Md. Sahil Ali 2. Md. Muslem Ali 3. Md. Sakur Ali S/o Saksan 4. Md. Matiur Rahman S/o Kala 5. Md. Saahid Ali 6. Md. Jelli Ali 7. Md. Nisan Ali S/o Jahur 8. Sri Ranjit Patgiri S/o Lt. Durgeswar
				662	KM-269	361.206	Private	1. Md. Siddik Sekh S/o Md. Puaram 2. Md. Haser Ali 3. Md. Habibor Ali 4. Md. Atuar Ali 5. Md. Ahit Ali S/o Bhondu 6. Md. Ahled Ali 7. Md. Siraj Ali S/o Siddik
				661	KM-59	227.426	Private	1. Md. Harmuj Ali S/o Rahim 2. Mst. Salesu Khatoon W/o Harmju

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				901	NK-53	1204.02	Private	1. Sri Haramohan Borua S/o Lekhi 2. Sri Baliram Talukdar 3. Sri Lakhikanta Talukdar 4. Sri Rabiram Talukdar 5. Sri Dagiram Talukdar S/o Chike 6. Sri Krishnakanta Mahajan S/o Maheswar 7. Sri Bhurmidhar Mahajan x S/o Utpal 8. Sri Premnath Choudhury S/o Paashu 9. Sri Tarini Patgiri S/o Tanayram 10. Sri Dhirendra Choudhary S/o Amburam 11. Sri Khanindra Choudhury S/o Mahamaya 12. Sri Priyanath Choudhary S/o Pandu 13. Sri Jogeswar Talukdar S/o Krishna
				667		133.78	Government Land	
				668	NK-6	481.608	Private	1. Sri Harihara sarma S/o Gauri 2. Sri Abani Sarma S/o Krishnakanta
				669	NK-47	481.608	Private	1. Sri Ramesh Medhi 2. Sri Madhab Medhi 3. Sri Pratap Medhi S/o Santi
				670	NK-50	321.072	Private	1. Sri Labanya Patgiri 2. Sri Ganesh Patgiri S/o Haramohan 3. Sri Bhabendra Patgiri 4. Sri Medan Patgiri S/o Bali
				671	NK-16	187.292	Private	1. Sri Gopi Patgiri S/o Jujo
				663	NK-7	187.292	Private	1. Sri Mahendra Patgiri S/o Kailash 2. Sri Ghanashyam Patgiri S/o Jokhi 3. Sri Narendra Barman S/o Ganesh
				660	NK-52	668.9	Private	1. Sri Hema Patgiri S/o Nitram 2. Sri Harendra Khatavar S/o Thanu 3. Sri Prabodh Kalita S/o Kameswar 4. Sri Parikshit Patgiri S/o Keshab 5. Sri Bhoban ch Talukdar S/o Thanu 6. Sri Amulya Patgiri S/o Sonewar 7. Sri Chitra Khataniar W/o Harendra 8. Sri Bhagaban Khataniar 9. Sri Durgeswar Patgiri S/o Thanu 10. Sri Mahendra Patgiri S/o Kailash 11. Sri Narendra Barman S/o Ganesh 12. Sri Biju Choudhary W/o Nabin

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	श्री गणेश पटगिरी श्री गणेश पटगिरी श्री गणेश पटगिरी श्री गणेश पटगिरी श्री गणेश पटगिरी श्री गणेश पटगिरी श्री गणेश पटगिरी श्री गणेश पटगिरी श्री गणेश पटगिरी श्री गणेश पटगिरी			658	NK-24	668.9	Private	1. श्री पतिराम पटगिरी 2. श्री गुणेश्वर पटगिरी 3. श्री हेमचंद्रा पटगिरी 4. श्री हरिचरण पटगिरी S/o Nilakanta 5. श्री शिवेंद्रा पटगिरी S/o Bali 6. श्री हरेन्द्रा पटगिरी S/o Thanu 7. श्री कस्तूराम पटगिरी S/o Ramlati 8. श्री बी. चौधुरी W/o Nabin
	श्री लबान्या पटगिरी श्री लबान्या पटगिरी श्री लबान्या पटगिरी श्री लबान्या पटगिरी श्री लबान्या पटगिरी श्री लबान्या पटगिरी श्री लबान्या पटगिरी श्री लबान्या पटगिरी श्री लबान्या पटगिरी श्री लबान्या पटगिरी			657	NK-50	1339.2	Private	1. श्री लबान्या पटगिरी 2. श्री गणेश पटगिरी S/o Haramohan 3. श्री शिवेंद्रा पटगिरी 4. श्री मदन पटगिरी S/o Bali 5. श्री हर्ष पटगिरी S/o Kisturam
	श्री रामचरण तालुकदार श्री रामचरण तालुकदार श्री रामचरण तालुकदार श्री रामचरण तालुकदार श्री रामचरण तालुकदार श्री रामचरण तालुकदार श्री रामचरण तालुकदार श्री रामचरण तालुकदार श्री रामचरण तालुकदार श्री रामचरण तालुकदार			688	NK-43	1230.776	Private	1. श्री रामचरण तालुकदार 2. श्री रंगनाथ तालुकदार 3. श्री खर्गेश्वर तालुकदार 4. श्री मोहन तालुकदार 5. श्री सोहदार S/o Reba 6. श्री चक्रधर तालुकदार 7. श्री कृष्णकान्त तालुकदार 8. श्री दामोदर तालुकदार S/o Nalu 9. श्री भोपल कलिता S/o Praneswar
	श्री कानक चौधुरी श्री कानक चौधुरी श्री कानक चौधुरी श्री कानक चौधुरी श्री कानक चौधुरी श्री कानक चौधुरी श्री कानक चौधुरी श्री कानक चौधुरी श्री कानक चौधुरी श्री कानक चौधुरी			687	NK-26	1070.24	Private	1. श्री कानक चौधुरी S/o Mohan 2. श्री रंजित चौधुरी S/o Lt. Kanak
	श्री लक्ष्मण पटगिरी श्री लक्ष्मण पटगिरी श्री लक्ष्मण पटगिरी श्री लक्ष्मण पटगिरी श्री लक्ष्मण पटगिरी श्री लक्ष्मण पटगिरी श्री लक्ष्मण पटगिरी श्री लक्ष्मण पटगिरी श्री लक्ष्मण पटगिरी श्री लक्ष्मण पटगिरी			691	KM-344	735.79	Private	1. श्री लक्ष्मण पटगिरी S/o Mukunda 2. श्री रुक्मिणी देका S/o Dharani
	श्री पद्मधर देका श्री पद्मधर देका श्री पद्मधर देका श्री पद्मधर देका श्री पद्मधर देका श्री पद्मधर देका श्री पद्मधर देका श्री पद्मधर देका श्री पद्मधर देका श्री पद्मधर देका			692	NK-26	307.694	Private	1. श्री पद्मधर देका 2. श्री तपन देका 3. श्री मुकुल देका S/o Chakradhar
	श्री ककोली ककोटी श्री ककोली ककोटी श्री ककोली ककोटी श्री ककोली ककोटी श्री ककोली ककोटी श्री ककोली ककोटी श्री ककोली ककोटी श्री ककोली ककोटी श्री ककोली ककोटी श्री ककोली ककोटी			693	NK-2	2061.612	Private	1. श्री ककोली ककोटी D/o Lt. Gagan 2. श्री ध्रुवज्योती ककोटी S/o Lt. Gagan 3. श्री ज्योती ककोटी W/o Lt. Gagan
	श्री बंधुराम तालुकदार श्री बंधुराम तालुकदार श्री बंधुराम तालुकदार श्री बंधुराम तालुकदार श्री बंधुराम तालुकदार श्री बंधुराम तालुकदार श्री बंधुराम तालुकदार श्री बंधुराम तालुकदार श्री बंधुराम तालुकदार श्री बंधुराम तालुकदार			659	NK-33	66.89	Private	1. श्री बंधुराम तालुकदार 2. श्री मोहोदर तालुकदार S/o Lt. Gendholu 3. श्री तान्केश्वर बरमान S/o Dharmeswar 4. श्री भोबन तालुकदार S/o Maniram 5. श्री कानक तालुकदार S/o Mohiram 6. श्री अनिता देवी W/o Dhirendra 7. श्री धिरेन्द्रा सार्मा S/o Khagendra 8. श्री अजित तालुकदार S/o Bijoy 9. श्री प्रतीका तालुकदार W/o Harendra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				686	NK-40	80.268	Private	1. Sri Harenra sarma S/o Maheswar 2. Sri Madan Sarma 3. Sri Dimbeswar, Sarma 4. Sri Basanta Sarma S/o Harakanta 5. Sri Narendra Sarma 6. Sri Sahadev Sarma 7. Sri Naresh Sarma 8. Sri Ganesh Sarma S/o Garga Sarma
				708		200.67	Government Land	
				725	KM-46	200.67	Private	1. Sri Girindra Dutta S/o Janmi Dutta 2. Sri Ugra Patgiri 3. Sri Promod Patgiri S/o Kala 4. Sri Harmohan patgiri S/o Dhana 5. Sri Pran Bandhu S/o Khargeswar 6. Sri Monoranjan patgiri S/o Sarbeswar 7. Sri Dipali Tahbilda W/o Mahananda
				726	KM-46	321.072	Private	1. Sri Girindra Dutta S/o Janmi Dutta 2. Sri Ugra Patgiri 3. Sri Promod Patgiri S/o Kala 4. Sri Harmohan patgiri S/o Dhana 5. Sri Pran Bandhu S/o Khargeswar 6. Sri Monoranjan patgiri S/o Sarbeswar 7. Sri Dipali Tahbilda W/o Mahananda 8. Sri Kumud Talukdar S/o Lahi 9. Sri Labhita Choudhury W/o Kumud
				728	KM-22	321.072	Private	1. Sri Ati ram Talukdar S/o Aghona 2. Sri Monoranjan Patgiri S/o Khargeswar 3. Sri Dipali Talukdar W/o Mahananda 4. Sri Kumud Talukdar S/o Lahi
				802	KM-340	66.89	Private	1. Sri Dhananidhar Kalita S/o Mohodan 2. Sri Prabin Kalita S/o S/o Devi 3. Sri Maheswar Choudhury S/o S/o Abhoy 4. Sri Jagyeswar Choudhary S/o Juju 5. Sri Hareswar Dutta S/o Shanti 6. Sri Madan Patgiri 7. Sri Labanya Patgiri 8. Sri Bhavendra Patgiri S/o Bali 9. Sri Ganesh patgiri S/o Hargobinda 10. Sri Bipin Das S/o Praneswar 11. Sri Harmohan Patgiri S/o Dhanu 12. Sri Deutram Agarwalla S/o Har Duari 13. Sri Gajendra Patgiri 14. Sri mahesh Patgiri S/o Bhuhuram

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				803	KM-161	107.024	Private	1. Sri Dharanidhar Choudhury S/o Mohodar 2. Sri Dulal Ch. Talukdar S/o Dasi
				810	KM-143	775.924	Private	1. Sri Dulal Talukdar 2. Sri Golak Talukdar 3. Sri Bhuban Talukdar 4. Sri Basant Talukdar S/o Dasi
				811	KM-162	5114.596	Private	1. Sri Dhanuram Patgiri S/o Saupa 2. Sri Prabin Mahanta S/o Haliram 3. Sri Gulap Talukdar S/o Atmaram 4. Sri Tarani Kanta Das S/o Puaram 5. Sri Aswini Das S/o Madhab 6. Sri Bhavendra Choudhary S/o Kalicharan 7. Sri Akoni Tahbilar W/o Rajani 8. Sri Dulal Talukdar 9. Sri Golak Talukdar 10. Sri Bhuban Talukdar 11. Sri Basant Talukdar S/o Dasi 12. Sri Pateswari Tahbilar W/o Amrit 13. Sri Harmohan Patfiri S/o Dhanu 14. Sri Upendra Jit Talukdar S/o Pusparam 15. Sri Chandra Kr. Patgiri S/o Guneswar 16. Sri Tulfaram Das S/o Nororam 17. Sri Hem Chandra Talukdar S/o Harakanta 18. Sri Phulen Tahbilar S/o Bhugi 19. Sri Kiran Ch. Singh S/o Tazmoni 20. Sri Mohodar Kalita S/o Manik 21. Sri Mukunda Talukdar
				808	KM-19	535.12	Private	1. Sri Ambika Sarma 2. Sri Annada Sarma S/o Jagyeswar
				787	KM-342	107.024	Private	1. Sri Shayam Talukdar 2. Sri Shiva Talukdar S/o Ramcharan 3. Sri Priya Talukdar 4. Sri Abhoy Talukdar 5. Sri Sambhu Talukdar S/o Saso
				777		160.536	Government Land	
				783		381.206	Private	1. Sri Daneswar kalita 2. Sri Nabakanta Kalita 3. Sri Ruplyoti Kalita 4. Sri Pankaj Kalita S/o Joykrishna
				784		227.426	Private	1. Sri Daneswar kalita 2. Sri Nabakanta Kalita 3. Sri Ruplyoti Kalita 4. Sri Pankaj Kalita S/o Joykrishna

24/6/2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(6) Rahadhar Birkala	47	KM-29	494.986	Private	1. Sri Paban Chandra Sarma 2. Golok Sarma S/o Ganeswar 3. Sri Harihara Sarma S/o Gopi 4. Sri Sunity Kakoti W/o Dimbeswar. 5. Sri Hanikrishna Kalita S/o Durgacharan
				48	KM-111	214.048	Private	1. Sri Umesh Ch. Sarma 2. Sri Rajani Sarma 3. Sri Tarun Sarma S/o Puran 4. Sri Prasanna Kalita 5. Sri Chakrapani Kalita S/o Khargeswar 6. Sri Lahiram Kalita S/o Gera 7. Sri Nidhi Kalita S/o Dhani 8. Sri Prabhat Sarma 9. Sri Girish Sarma 10. Sri Tarini Sarma 11. Sri Upendra Sarma 12. Sri Dhanaram Sarma S/o Bapuram 13. Sri Jiten Sarma 14. Sri Biren Sarma 15. Sri Sailen Sarma S/o Haranath 16. Sri Mahendra Sarma 17. Sri Maheswar Sarma 18. Sri Bhupendra Sarma S/o Rameswar 19. Sri Keshab Sarma S/o Habicha 20. Sri Keshab Sarma 21. Sri Loknath Sarma 22. Sri Somnath Sarma S/o Padu 23. Sri Kameswar kalita 24. Sri Ramani Kalita 25. Sri Rajani Kalita 26. Sri Kharani Kalita 27. Sri Suren Kalita 28. Sri Ghanakanta Kalita S/o Anjotiya
			(7) Sariah Sakala	449	NK-156	260.871	Private	1. Sri Satyanath Choudhury S/o Lt. Chandra nath 2. Sri mamoni Goswami W/o Sri Uday Sarma 3. Sri Uday Sarma S/o Lt. Harindra 4. Sri Lankeswar kalita 5. Sri Damodar Kalita S/o Sri Bhadreswar Kalita
				450	NK-156	244.1485	Private	1. Sri Satyanath Choudhury S/o Lt. Chandra nath 2. Sri Pratibha Bezboruah W/o Sarbananda Sil
				452	NK-113	244.1485	Private	1. Sri Pratibha Choudhury W/o Sarbananda Sil 2. Dhirendranath Choudhury S/o Lt. Balkuntha 3. Sri Rita Choudhury 4. Sri Nirupama Choudhury D/o Lt. Balkuntha 5. Sri Manomoti Choudhury W/o Lt. Baikuntha

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				453	NK-27	234.115	Private	1. Sri Uday Sarma 2. Sri Tarini Sarma 3. Sri Narayan Sarma 4. Sri Phanindra Sarma 5. Sri Tapen Sarma 6. Sri Keshab Sarma S/o Lt. Kanak 7. Sri malhura Mohan Sarma S/o Lt. Bhubaneswar
				457	NK-28	307.694	Private	1. Sri Jaminipriya Devi W/o Gobinda 2. Sri Pulin Sarma 3. Sri Mrinal Sarma 4. Sri Hitesh Sarma S/o Lt. Dhaneswar 5. Sri Renu Devi W/o Lt. Dhaneswar 6. Sri Ritendra Sarma 7. Sri Niranjana Sarma 8. Sri Rangmohan Sarma 9. Sri Paresh Sarma 10. Sri Tikendra Sarma S/o Lt. Dinanath
				458	NK-124	280.938	Private	1. Sri Khaendra Sarma 2. Sri Monoranjan Sarma 3. Sri Phulen Sarma S/o Lt. Kripanath 4. Sri Padmini Devi D/o Lt. Jibeswar 5. Sri Hemlata Devi D/o Lt. Upendra 6. Sri Gopal Sarma 7. Sri Dilip Sarma 8. Sri Phanin Sarma S/o Lt. Suryakanta 9. Sri Girja Devi W/o Lt. Suyakanta 10. Sri Pulin Sarma S/o Lt. Kripanath
		(8)Patacharkuchi		518		70.2345	Private	Balaji Circle Office
				601		143.8135	Private	Road
				628		695.656	Private	Veterinary Hospital
				627		535.12	Private	1. Sri Harekrishna Das S/o Rabiram
				626		347.828	Private	1. Sri Birendra Kalita 2. Sri Bhupendra Kalita S/o Sonaram 3. Sri Baikuntha Kalita 4. Sri Mahendra Kalita S/o Dinanath 5. Sri Madan Kalita S/o Mihiram 6. Sri Dhruba Kalita S/o Chandra kalita 7. Sri Tapen Choudhury S/o Chittaranjan
				625	KM-60	508.364	Private	1. Sri Girish Goswami S/o Lakhikanta 2. Sri Kamakhya Goswami 3. Sri Tarun Goswami 4. Sri Bijoy Goswami 5. Sri Khagendra Goswami S/o Lt. Mohini
				624	KM-61	535.12	Private	1. Sri Ramesh Ch. Goswami 2. Sri Dharani Goswami S/o Late Somnath 3. Sri Sailendra Sarma 4. Sri Dimbeswar Sarma S/o Late Jibeswar
				622	KM-59	347.828	Private	1. Sri Bhagawan Goswami S/o Late Lakhikanta 2. Sri Kandarpa Kr. Goswami 3. Sri Mukul Goswami 4. Sri Hitesh Goswami 5. Sri Pinto Kr. Goswami S/o Dhireswar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				621	KM-26	321.072	Private	1. Sri Akhya Kr. Goswami S/o Kameswar
				620	KM-62	321.072	Private	1. Sri Debendra Nr. Goswami 2. Sri Surendra Goswami 3. Sri Munindra Goswami 4. S/o Garga Goswami
				611		1056.862	Private	Inspection Bungalow
				614		374.584	Government Land	Police Station
				618		535.12	Government Land	Police Station
				617		856.192	Government Land	Police Station
				665		2743.89	Government Land	River
				666	KM-18	414.718	Private	1. Sri Phulendra Sarma S/o Late Debendra
				704	KM-1	267.56	Private	1. Sri Phulendra Sarma S/o Lt. Debendra
				640		80.268	Private	Road
				161	KM-19	73.579	Private	1. Sri Lohit Ch. Das S/o Lt. Rongmal 2. Sri Mohodhar Goswami S/o Lt. Keshab 3. Sri Dilip Sarma S/o Lt. Krishna Kanta
				547	KM-13	575.254	Private	1. Sri Lohit Ch. Das 2. Sri Kanak Das S/o Lt. Rongmal 3. Sri Mohodhar Goswami S/o Lt. Keshab 4. Sri Basant S/o Lt. Mahendra
				543		93.646	Private	1. Sri Debendra Sarma S/o Late Harmohan
				544		334.45	Private	1. Sri Debendra Sarma S/o Late Harmohan
				541		2935.9265	Private	1. Sri Rebpyi Ray W/o Lt. Kalikanta 2. Sri Reboti Ray 3. Dasarath Ray S/o Lt. Kinaram 4. Sri Ratneswar Talukdar S/o Lt. Mahendra 5. Sri Ramesh Chandra Haloi 6. Sri Paramesh Haloi 7. Sri Parash Haloi S/o Ganga Ram
				542		642.144	Private	1. Sri Rebpyi Ray W/o Lt. Kalikanta 2. Dasarath Ray S/o Lt. Kinaram 3. Sri Ratneswar Talukdar S/o Mahendra 4. Sri Reboti Ray W/o Arun
				538		76.9235	Private	1. Sri Ramesh Ch. Haloi 2. Sri Paramesh Haloi 3. Sri Parash Haloi S/o Ganga Ram
				537		60.201	Government Land	Office of National Highways
				529		86.957	Government Land	Office of National Highways

[F. No. NHA/13012/09/NAL-Bijni/2004]

PRABHAKAR, Dy. Secy.